



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20—सितम्बर 26, 2008 (भाद्रपद 29, 1930)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2008 (BHADRA 29, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2008

थल सेना विभाग

सं. 470, दिनांक 08 सितम्बर 2008—थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

कैप्टन के पद पर (परख पर)

अंकुरिता शर्मा (डी एस-12305एम), एडी कोर, 01 अप्रैल 2008

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(अल्पकालीन कमोशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

मुनीश वर्मा (डी एस-12262एच), एडी कोर, 31 दिसम्बर 2007

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 30 जून 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(28 जून 2008 को राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

डी के तनेजा

मेजर जनरल एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 471, दिनांक 08 सितम्बर 2008—राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमोशन

(क) निम्नलिखित अल्प सेवा कमोशन प्राप्त अधिकारी को उनके 08 मार्च 2008 से अल्प सेवा कमोशन छोड़ने पर 08 मार्च 2008 से स्थायी कमोशन प्रदान किया जाता है।

नाम, एसएस नं., आईसी सं. आर्बंटि, आर्म/सर्विस

औबरे एल बर्ड, (एसएस-40135) (आईसी-65890आई), एससी

(ख) उपरोक्त अधिकारी को पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:

- (i) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 08 मार्च 2003  
(ii) पदोन्नति के लिये तारीख — 08 नवम्बर 2003

(ग) उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थायी कर्मोशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कर्मोशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

बी एम रानडे  
कर्मल  
कर्मल एम एम 7

सेना शाखा

सं. 472, दिनांक 08 सितम्बर 2008—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत 30 जनवरी 2006 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति दिनांक 30 जनवरी 2005) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कर्मोशन प्रदान करते हैं:-

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कर्मोशन

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्मतिथि

- ले. बेन्सी के मनो (एनआर-21525एक्स), 21 दिसम्बर 1981  
ले. उर्मिला (एनआर-21526ए), 10 मार्च 1978  
ले. स्वपनिल सिंह (एनआर-21527एच), 07 मार्च 1980  
ले. सोमा कुमारी (एनआर-21528एल), 24 जून 1979

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित परिवारिका अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2003 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति दिनांक 28 जुलाई 2003) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कर्मोशन प्रदान करते हैं:-

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जन्मतिथि

- ले. सुनीता कुमारी (एनआर-21314पी), 04 मई 1980  
ले. स्मिता के (एनआर-21315एक्स), 03 दिसम्बर 1978  
ले. प्रिया नग्गर (एनआर-21316ए), 01 सितम्बर 1981  
ले. शिखा सेलिन रय (एनआर-21317एच), 27 नवम्बर 1980  
ले. विशालाक्षी टांडकर (एनआर-21318एल), 12 सितम्बर 1981  
ले. जमशेद कौर (एनआर-21319एन), 08 सितम्बर 1980  
ले. पूजा (एनआर-21320एच), 26 जून 1982  
ले. नीतू रानी (एनआर-21321एल), 01 अक्तूबर 1980

ले. दीप्ति शर्मा (एनआर-21322एन), 14 दिसम्बर 1981

ले. तुशारा नायर (एनआर-21323एचयू), 19 जून 1981

ले. अमृतपाल कौर (एनआर-21325एफ), 19 अप्रैल 1980

ले. ज्योत्सना (एनआर-21326के), 20 नवम्बर 1979

ले. सोनिया सकलानी (एनआर-21327एच), 13 अगस्त 1981

ले. ज्योति पी मेनन (एनआर-21328पी), 07 दिसम्बर 1981

ले. अनुग्रह चरन (एनआर-21329एक्स), 29 मार्च 1981

ले. सीमा हुड्डा (एनआर-21330एच), 29 नवम्बर 1981

ले. चन्द्रिमा भट्टचक्र्य (एनआर-21331पी), 10 मार्च 1981

ले. आरती शर्मा (एनआर-21332एक्स), 12 अप्रैल 1981

ले. एस शालिनी (एनआर-21333ए), 24 जनवरी 1982

ले. निरुपमा चौहान (एनआर-21334एच), 25 अगस्त 1977

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत दिनांक 21 अगस्त 2006 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति दिनांक 21 अगस्त 2005) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कर्मोशन प्रदान करते हैं:-

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जन्मतिथि

ले. शिवप्रिया (एनआर-21529एन), 28 मई 1981

ले. भावना भास्कराज (एनआर-21530एच), 19 मई 1984

ले. मीनाक्षी बाजवा (एनआर-21531एल), 14 जून 1984

ले. श्रावणी रॉय (एनआर-21532एन), 01 अगस्त 1982

ले. नीरज चौधरी (एनआर-21533डब्ल्यू), 26 मार्च 1983

ले. संदीप कुमारी (एनआर-21534आई), 30 जुलाई 1983

ले. विद्या पी (एनआर-21535एफ), 05 मई 1984

ले. विनीता सिंह (एनआर-21536के), 09 जुलाई 1981

ले. कविता गुरूंग (एनआर-21537एन), 27 जुलाई 1980

ले. पम्पा मुखर्जी (एनआर-21538पी), 25 फरवरी 1982

ले. लिजी जोसेफ (एनआर-21539एक्स), 23 मार्च 1982

ले. सविन्दर मलिक (एनआर-21540एम), 28 सितम्बर 1984

ले. अरूणा अरविन्दन (एनआर-21541पी), 29 दिसम्बर 1982

ले. विजया साहा (एनआर-21542एक्स), 01 मई 1984

ले. वैजन्ती भटवाल (एनआर-21543ए), 07 जनवरी 1982

ले. लिट्टू बरगीस (एनआर-21544एच), 02 जनवरी 1983

ले. निशी (एनआर-21545एल), 26 जनवरी 1982

- ले. आरजू चोहरा (एनआर-21546एन), 07 जुलाई 1984  
 ले. तनु जादली (एनआर-21547डब्ल्यू), 24 नवम्बर 1982  
 ले. डैम्पल डी धानखर (एनआर-21548वाई), 25 अक्टूबर 1979  
 ले. जागृति सुखपाल (एनआर-21549एफ), 08 जुलाई 1982  
 ले. रिचा राय (एनआर-21550डब्ल्यू), 24 मार्च 1982  
 ले. खैना दाश (एनआर-21551वाई), 02 फरवरी 1978  
 ले. माया नायर (एनआर-21552एफ), 05 दिसम्बर 1983  
 ले. पूनम कश्यप (एनआर-21553के), 20 अगस्त 1983  
 ले. कबिता दास (एनआर-21554एम), 05 जुलाई 1982  
 ले. एम प्रिया (एनआर-21555पी), 11 नवम्बर 1980  
 ले. अनीता नायर अशोकन (एनआर-21556एक्स), 07 सितम्बर 1983

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत दिनांक 03 दिसम्बर 2003 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति दिनांक 03 दिसम्बर 2002) से मिलित नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जन्मतिथि

- ले. रोहिणी दीवान (एनआर-21312एन), 15 दिसम्बर 1977  
 ले. अगिवांग्ल्यू न्युमाई (एनआर-21313डब्ल्यू), 01 मार्च 1981

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत दिनांक 03 सितम्बर 2004 से मिलित नर्सिंग सेवा में कमीशन प्रदान करते हैं:--

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जन्मतिथि

- ले. धान्या पी नायर (एनआर-21335एल), 01 जून 1983  
 ले. रूपाली शर्मा (एनआर-21336एन), 04 अक्टूबर 1981  
 ले. नीतू शर्मा (एनआर-21337डब्ल्यू), 26 सितम्बर 1982  
 ले. किरन सिंह (एनआर-21338वाई), 03 अक्टूबर 1982  
 ले. दीपा साहमन (एनआर-21339एफ), 25 अक्टूबर 1982  
 ले. ए बी अन्नपूर्णा (एनआर-21340डब्ल्यू), 25 अक्टूबर 1980  
 ले. शरलो थोहानन (एनआर-21341वाई), 20 जनवरी 1983  
 ले. समता पन्त (एनआर-21342एफ), 10 मार्च 1982  
 ले. मेरी रेमी के ए (एनआर-21343के), 21 मई 1981

- ले. प्रीती भट्ट (एनआर-21344एम), 30 जून 1981  
 ले. अंशु पलिक (एनआर-21345पी), 01 अगस्त 1982  
 ले. अमृता (एनआर-21346एक्स), 02 मार्च 1983  
 ले. प्रणिता क्षेत्री (एनआर-21347ए), 17 अगस्त 1983  
 ले. चारु गुप्ता (एनआर-21348एच), 11 अगस्त 1983  
 ले. कषा धिगवैजाम (एनआर-21349एल), 27 फरवरी 1983  
 ले. मोनिशा नाथ (एनआर-21350ए), 08 सितम्बर 1982  
 ले. महुआ डपाध्याय (एनआर-21351एच), 28 नवम्बर 1976  
 ले. श्रीना पुष्पगंधन (एनआर-21352एल), 22 दिसम्बर 1982  
 ले. प्रीती (एनआर-21353एन), 07 जून 1979  
 ले. बिनिता दास (एनआर-21354डब्ल्यू), 15 जून 1980  
 ले. सरिता नुवाल (एनआर-21355वाई), 24 जनवरी 1979  
 ले. अम्बलीकुट्टी (एनआर-21356एफ), 21 मई 1980  
 ले. अभिलाषा कुमारी (एनआर-21357के), 25 अगस्त 1983  
 ले. सीमा बिष्ट (एनआर-21358एम), 10 मार्च 1978  
 ले. शान्ति जखवाल (एनआर-21359ए), 05 अगस्त 1978  
 ले. बन्दना (एनआर-21360के), 06 अगस्त 1978  
 ले. पूनम यादव (एनआर-21361एम), 01 जनवरी 1982  
 ले. जिशमोल सेबेस्टिन (एनआर-21362पी), 01 जून 1983  
 ले. भोविका शर्मा (एनआर-21363एक्स), 09 जुलाई 1983  
 ले. रेनू सिंह (एनआर-21364ए), 16 जुलाई 1979  
 ले. ए बिनी वर्गीस (एनआर-21365एच), 19 जुलाई 1981  
 ले. शेरिन चेरियन (एनआर-21366एल), 28 अक्टूबर 1981  
 ले. गुरमीत कौर (एनआर-21367एन), 09 दिसम्बर 1976  
 ले. सोजिया जोसेफ (एनआर-21368डब्ल्यू), 28 जनवरी 1983  
 ले. निशी चन्द्रन (एनआर-21369वाई), 03 नवम्बर 1980  
 ले. सिजी भास्करन (एनआर-21370एन), 15 जून 1981  
 ले. जोनू पी एक्काहम (एनआर-21371डब्ल्यू), 16 मार्च 1982  
 ले. किरन कुमारी (एनआर-21372वाई), 28 अक्टूबर 1980  
 ले. स्वाति दलवी (एनआर-21373एफ), 20 मार्च 1983  
 ले. नीता चक्रवर्ती (एनआर-21374के), 08 जून 1983  
 ले. पात्रा डे (एनआर-21375एम), 06 सितम्बर 1982  
 ले. पिन्की (एनआर-21376पी), 26 अक्टूबर 1980  
 ले. जयश्री एस (एनआर-21377एक्स), 10 मई 1982  
 ले. रेखा चन्द्रन (एनआर-21378ए), 01 मार्च 1983  
 ले. अर्चना कुमारी शर्मा (एनआर-21379एच), 05 अप्रैल 1981

- ले. ममता रावत (एनआर-21380आई), 13 जनवरी 1982  
 ले. पद्म संगीता टेप्पा (एनआर-21381ए), 30 मार्च 1982  
 ले. राखी राज (एनआर-21382एच), 07 अगस्त 1982  
 ले. जी लता (एनआर-21383एल), 21 मई 1982  
 ले. रेखा खोन्जन (एनआर-21384एन), 05 अगस्त 1982  
 ले. राखी (एनआर-21385डब्ल्यू), 30 अगस्त 1982  
 ले. ममता डिमरो (एनआर-21386आई), 24 जून 1983

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेवा अनुदेश 398 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत दिनांक 25 अगस्त 2005 से न्यायो कर्मोशन प्रदान करते हैं:

#### ले. परछ पा

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जगतिथि

- ले. कल्पना खेवर (एनआर-21439एम), 30 मई 1983  
 ले. किरण मिह (एनआर-21440एफ), 11 सितम्बर 1984  
 ले. अनुराधा गौड़ (एनआर-21441के), 05 नवम्बर 1982  
 ले. आकांक्ष शर्मा (एनआर-21442एम), 03 अगस्त 1983  
 ले. अनु शर्मा (एनआर-21443पी), 22 नवम्बर 1983  
 ले. ललिता अलाप्रिया (एनआर-21444एक्स), 20 जनवरी 1980  
 ले. भौसमी प्रमाणिक (एनआर-21445ए), 20 अगस्त 1980  
 ले. जतिन्दर कौर (एनआर-21446एच), 14 दिसम्बर 1983  
 ले. ऐसी मिशेल (एनआर-21447एल), 01 अगस्त 1982  
 ले. निशा फिलिप के (एनआर-21448एन), 12 सितम्बर 1983  
 ले. कान्या बालू (एनआर-21449डब्ल्यू), 08 मई 1983  
 ले. गुंमन जी (एनआर-21450एल), 29 सितम्बर 1983  
 ले. दीपा डबास (एनआर-21451एन), 08 अगस्त 1983  
 ले. शालिनी (एनआर-21452एन), 15 फरवरी 1984  
 ले. गीता कुमारी चतर (एनआर-21453आई), 24 मई 1982  
 ले. जीनू जॉन (एनआर-21454एफ), 22 अगस्त 1983  
 ले. पूजा हुकरे (एनआर-21455के), 20 नवम्बर 1983  
 ले. सुमित्रा कौर (एनआर-21456एम), 07 दिसम्बर 1980  
 ले. आशु राना (एनआर-21457पी), 12 दिसम्बर 1980  
 ले. अर्चना सम्बरल (एनआर-21458एक्स), 20 दिसम्बर 1980  
 ले. सीजा कुरूप (एनआर-21459ए), 11 जनवरी 1984

- ले. मनीषा (एनआर-21462ए), 09 जुलाई 1982  
 ले. लीना तमोरा (एनआर-21463एच), 29 अगस्त 1983  
 ले. नीतू कुमारी (एनआर-21464एल), 25 मई 1978  
 ले. शिखा के (एनआर-21465एन), 02 जनवरी 1984  
 ले. मन्दाउ नियांग (एनआर-21466डब्ल्यू), 03 जून 1981  
 ले. अरुन्धति (एनआर-21467आई), 14 जनवरी 1983  
 ले. मेरी जान्सन के (एनआर-21468एफ), 01 फरवरी 1984  
 ले. रमिन्दर कौर (एनआर-21469के), 09 अक्टूबर 1980  
 ले. प्रगति निगम (एनआर-21470आई), 15 मार्च 1981  
 ले. दिव्या पी (एनआर-21471एफ), 16 मार्च 1983  
 ले. राधिका पां की (एनआर-21472के), 30 मई 1984  
 ले. पूजा राई (एनआर-21473एम), 11 अप्रैल 1983  
 ले. पद्मा अग्निनी (एनआर-21474पी), 11 अगस्त 1983  
 ले. सतविन्दरजीत कौर (एनआर-21475एक्स), 12 जनवरी 1984  
 ले. रीना कुमारी (एनआर-21476ए), 15 जनवरी 1981  
 ले. शीना मैथ्यू (एनआर-21477एच), 21 फरवरी 1981  
 ले. शिखा गुप्ता (एनआर-21478एल), 15 अगस्त 1981  
 ले. सोनिया त्रिपाठी (एनआर-21479एन), 31 जनवरी 1982  
 ले. वन्दना कुमारी (एनआर-21480एच), 25 अक्टूबर 1982  
 ले. अंजू चैथू (एनआर-21481एल), 02 अप्रैल 1983  
 ले. रितू राई (एनआर-21482एन), 11 सितम्बर 1979  
 ले. सोमा कापसे (एनआर-21483डब्ल्यू), 16 फरवरी 1981  
 ले. जिशा डी (एनआर-21484आई), 10 फरवरी 1983  
 ले. श्वेता शर्मा (एनआर-21485एफ), 01 मई 1984  
 ले. सुसी आनन्द (एनआर-21486के), 07 जुलाई 1979  
 ले. काल्याणी (एनआर-21487एम), 05 दिसम्बर 1980  
 ले. राखी (एनआर-21488पी), 27 नवम्बर 1981  
 ले. रितू हागुर (एनआर-21489एक्स), 19 नवम्बर 1982  
 ले. सोनिया परवीन (एनआर-21490एम), 05 मार्च 1981

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेवा अनुदेश 398 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत न्यायो कर्मोशन (डीएससी नर्सिंग के लिए) दिनांक 20 अगस्त 2005 से प्रदान करते हैं:

#### ले. परछ पा

ले. अमिता एलेक्जेंडर (एनआर-21424के), 13 जनवरी 1983  
 ले. प्रेम लता सिंह (एनआर-21425एम), 24 अगस्त 1979  
 ले. दीपा कुमारी (एनआर-21426पी), 21 नवम्बर 1979  
 ले. शशि रावत (एनआर-21427एक्स), 04 जुलाई 1980  
 ले. दिव्या जगदीश (एनआर-21428ए), 16 नवम्बर 1982  
 ले. रश्मि जोस थेराटिल (एनआर-21429एच), 21 अप्रैल 1981  
 ले. प्रिया तेवतिया (एनआर-21430एक्स), 02 अगस्त 1982  
 ले. सजनी पी कृष्णन (एनआर-21431ए), 13 अप्रैल 1980  
 ले. एस श्री देवी (एनआर-21432एच), 25 जुलाई 1982  
 ले. राजे आर आर (एनआर-21433एल), 20 मई 1980  
 ले. अर्पिता दान (एनआर-21434एन), 03 फरवरी 1982  
 ले. पूर्णिमा कुमारी (एनआर-21435डब्ल्यू), 04 जनवरी 1982  
 ले. निभा कुमारी (एनआर-21436वाई), 27 जुलाई 1977  
 ले. शीता पुनेश (एनआर-21437एफ), 14 सितम्बर 1977  
 ले. मोना के के (एनआर-21438के), 09 फरवरी 1982

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 25937/डीजीएफएमएस /एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत दिनांक 02 अगस्त 2003 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में कमीशन प्रदान करते हैं:--

#### लेफ्टि. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जन्मतिथि

ले. आशा के जे (एनआर-21242डब्ल्यू), 22 मई 1982  
 ले. पुष्पलता रावत (एनआर-21243वाई), 30 अक्टूबर 1979  
 ले. राधा (एनआर-21244एफ), 07 सितम्बर 1978  
 ले. पूजा शर्मा (एनआर-21245के), 27 अक्टूबर 1981  
 ले. मन्जू राना (एनआर-21246एम), 15 सितम्बर 1982  
 ले. शिवा डोरोपी राय (एनआर-21247पी), 22 सितम्बर 1980  
 ले. जसविन जोस (एनआर-21248एक्स), 17 अक्टूबर 1981  
 ले. पूनम (एनआर-21249ए), 14 दिसम्बर 1979  
 ले. प्रियम साराम्मा वर्गीस (एनआर-21250पी), 13 सितम्बर 1981  
 ले. जया शर्मा (एनआर-21251एक्स), 22 अगस्त 1978  
 ले. सीमा थॉमस (एनआर-21252ए), 16 मई 1979  
 ले. श्रुति सिंह (एनआर-21253एच), 25 दिसम्बर 1981  
 ले. प्रीती उपाध्याय (एनआर-21254), 06 जुलाई 1982  
 ले. रोजी राउत (एनआर-21255), 20 सितम्बर 1977

ले. नन्दिनी पनिकर (एनआर-21256), 30 जून 1981  
 ले. चंचल रानी (एनआर-21257), 29 मई 1981  
 ले. निशा कुमारी (एनआर-21258), 16 सितम्बर 1978  
 ले. पूजा शर्मा (एनआर-21259), 20 दिसम्बर 1981  
 ले. प्रतिमा रावत (एनआर-21260), 14 जून 1981  
 ले. पोनिका शर्मा (एनआर-21261), 04 दिसम्बर 1981  
 ले. प्रीतामोल बाबू (एनआर-21262), 14 जुलाई 1982  
 ले. भावना बुधोरी (एनआर-21263), 20 अगस्त 1982  
 ले. कमलेश कुमारी मिश्रा (एनआर-21264), 01 जून 1977  
 ले. आरती मिश्रा (एनआर-21265), 26 अगस्त 1978  
 ले. नूरजहान (एनआर-21266), 29 जून 1980  
 ले. नीलम राठौर (एनआर-21267), 06 मई 1981  
 ले. रीना (एनआर-21268), 02 सितम्बर 1980  
 ले. संध्या नायर (एनआर-21269), 26 मई 1982  
 ले. थाकचाम राधायात्री देवी (एनआर-21270), 01 अगस्त 1977  
 ले. सती विश्वास (एनआर-21271), 16 अक्टूबर 1977  
 ले. लिपिका डे (एनआर-21272), 01 जुलाई 1978  
 ले. रजनी जगदेबा (एनआर-21273), 24 जनवरी 1979  
 ले. लीना के (एनआर-21274), 27 अगस्त 1981  
 ले. अपर्णा (एनआर-21275), 25 दिसम्बर 1982  
 ले. डेलफी एलेक्जेंडर पीटर (एनआर-21276के), 17 जुलाई 1981  
 ले. पूजा (एनआर-21277एम), 10 अगस्त 1981  
 ले. झंकृता हलदार (एनआर-21278पी), 06 जून 1980  
 ले. ज्योतिप्रभा शरण (एनआर-21279एक्स), 15 अगस्त 1980  
 ले. पुष्पा भट्ट (एनआर-21280एम), 21 नवम्बर 1981  
 ले. रेहाना बी आर (एनआर-21281पी), 23 मई 1982  
 ले. मौमिता अधिकारी (एनआर-21282एक्स), 15 अगस्त 1981  
 ले. स्वाति शर्मा (एनआर-21283ए), 10 सितम्बर 1982

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस /एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत अस्थावी आयोर्ग मिलिट्री नर्सिंग सेवा में दिनांक 02 अगस्त 2003 से अस्थावी कमीशन प्रदान करते हैं:--

#### लेफ्टि. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जन्मतिथि

ले. विदिशा बासु (एनएस-21284एच), 06 मई 1979

ले. पूजा झा (एनएस-21285एल), 05 मई 1982  
 ले. प्रसन्ना कुमारी (एनएस-21286एन), 08 अगस्त 1977  
 ले. आरती राती (एनएस-21287डब्ल्यू), 09 नवम्बर 1978  
 ले. मरीना सोनी बर्नाड (एनएस-21288वाई), 28 फरवरी 1979  
 ले. सुमित्रा घटियाला (एनएस-21289एफ), 27 अक्तूबर 1980  
 ले. असीमा महुन्ती (एनएस-21290डब्ल्यू), 13 अगस्त 1981  
 ले. स्वाति श्रीवास्तव (एनएस-21291वाई), 19 मई 1978  
 ले. रचना श्रीवास्तव (एनएस-21292एफ), 19 मई 1978  
 ले. पंजु के जोस (एनएस-21293के), 28 फरवरी 1982  
 ले. परणा मलिक (एनएस-21294एन), 10 अगस्त 1978  
 ले. सरोज (एनएस-21295पी), 01 मई 1980  
 ले. लक्ष्मी एम (एनएस-21296एक्स), 31 मई 1979  
 ले. प्रेयलता (एनएस-21297ए), 13 फरवरी 1980  
 ले. नेहा कपिला (एनएस-21298एच), 08 दिसम्बर 1983  
 ले. पूजा शर्मा (एनएस-21299एल), 13 अक्तूबर 1981  
 ले. चम्पायर्मा गुप्ता (एनएस-21300पी), 08 अप्रैल 1980  
 ले. ए बलरामति (एनएस-21301एक्स), 10 अप्रैल 1980  
 ले. के सरिता (एनएस-21302ए), 02 जून 1980  
 ले. एम वी इन्दू (एनएस-21303एच), 22 अप्रैल 1979  
 ले. अपर्णा चिल्लो (एनएस-21304एल), 04 जुलाई 1982  
 ले. अमृता (एनएस-21305एन), 09 फरवरी 1982  
 ले. श्रीलिमा नायर (एनएस-21306डब्ल्यू), 03 नवम्बर 1976  
 ले. आकांक्षा हलदर (एनएस-21307वाई), 17 मई 1980  
 ले. नीता के (एनएस-21308एफ), 09 मई 1977  
 ले. अंजली सिंह (एनएस-21309के), 01 सितम्बर 1981  
 ले. टिनू के एस (एनएस-21310वाई), 27 मई 1982  
 ले. अंजली चौहान (एनएस-21311एफ), 06 मार्च 1982

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस-2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17-96 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत प्रत्यावर्द्ध आयोग मिलिट्री नर्सिंग सेवा में दिनांक 25 अगस्त 2005 से क्रमशः प्रदान करते हैं:

लेफ्टि. भरख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत नम्बर और जन्मतिथि

ले. हासा भगकार (एनएस-21491पी), 07 अप्रैल 1979  
 ले. इन्दुलेखा के ए (एनएस-21492एक्स), 08 नवम्बर 1980

ले. आर विजयलक्ष्मी (एनएस-21493ए), 26 जुलाई 1984  
 ले. कुन्थ जोस (एनएस-21494एच), 09 नवम्बर 1983  
 ले. अपर्णा पिको (एनएस-21495एल), 04 जुलाई 1981  
 ले. स्मिता जोसफ (एनएस-21496एन), 05 अप्रैल 1983  
 ले. पंजु सोमन (एनएस-21497डब्ल्यू), 02 अगस्त 1983  
 ले. भारती देवी (एनएस-21498वाई), 21 जनवरी 1982  
 ले. पुष्पा कुमारी (एनएस-21499एफ), 05 अगस्त 1983  
 ले. निरुपमा सितसुवत (एनएस-21500एल), 29 फरवरी 1980  
 ले. सरिता राना (एनएस-21501एन), 23 सितम्बर 1980  
 ले. सीमा राजपूत (एनएस-21502डब्ल्यू), 14 जनवरी 1984  
 ले. परमिल यादव (एनएस-21503वाई), 16 जुलाई 1984  
 ले. सरिता सिंह (एनएस-21504एफ), 05 दिसम्बर 1983  
 ले. अनुष्मा शिखला (एनएस-21505के), 27 जून 1981  
 ले. ज्योत्सना सिंह (एनएस-21506एम), 03 फरवरी 1983  
 ले. वर्षा मधुलिका (एनएस-21507सी), 15 फरवरी 1983  
 ले. रश्मि राना (एनएस-21508एक्स), 01 जुलाई 1983  
 ले. अजंता भास्कोम (एनएस-21509ए), 25 दिसम्बर 1982  
 ले. प्रियंका एस (एनएस-21510पी), 29 मई 1984  
 ले. श्यामा बालचन्द्रन (एनएस-21511एक्स), 30 मई 1984  
 ले. नीलिमा डे (एनएस-21512ए), 31 दिसम्बर 1977  
 ले. शिप्रा सिंह (एनएस-21513एच), 04 जून 1980  
 ले. अमिता मिश्रा (एनएस-21514एल), 01 जून 1982  
 ले. सुपर्णा सिंहा (एनएस-21515एन), 18 अप्रैल 1982  
 ले. मनिन्दर कौर (एनएस-21516डब्ल्यू), 14 दिसम्बर 1981  
 ले. कंचन (एनएस-21517वाई), 30 जून 1981  
 ले. संगीता यादव (एनएस-21518एफ), 06 फरवरी 1983  
 ले. लुइस लिनैट थॉमस (एनएस-21519के), 30 अगस्त 1983  
 ले. नवजीत कौर (एनएस-21520वाई), 10 अप्रैल 1982  
 ले. प्रेटी जार्ज (एनएस-21521एफ), 17 फरवरी 1984  
 ले. ग्रीष्मा वर्गीस एम (एनएस-21522के), 25 अक्तूबर 1984  
 ले. अश्विनी (एनएस-21523एच), 05 फरवरी 1981  
 ले. मोनाकी पारीख (एनएस-21524पी), 10 अगस्त 1983

ले. एलमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महासिदेशक एमएनएस

मेना शाख

सं. 473, दिनांक 09 नवम्बर 2008 - राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित कप्तानों की परखावर्द्ध समायोजन होने पर उनकी सेवाओं की उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से पूर्ण करते हैं:-

## नियमित सेना

## अल्प कालीन कमीशन

रैंक एवं नाम, व्यक्तिगत सं., कोर और प्रुष्टि की तिथि

कप्तान नवीन पी एन (वीएस-1124एफ), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान मरल उमेश जय सिंगराव (वीएस-1125के), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान अनोप ए (वीएस-1126एम), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान राहुल दूबे (वीएस-1127पी), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान धनन्जय सिंह (वीएस-1128एक्स), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान आशीष मिश्रा (वीएस-1129ए), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान दिग विजयादित्य (वीएस-1130पी), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान के सैथिल कुमार (वीएस-1131एक्स), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान धीरज मेहता (वीएस-1132ए), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान अरिप्रस्थ के (वीएस-1133एच), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान समीर फरूखी (वीएस-1134एल), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान जे के माथरिया (वीएस-1135एन), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान जी वेंकटेशन (वीएस-1136डब्ल्यू), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान एम इफ्तखार कुरैशी (वीएस-1137वीय), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान किशोर के (वीएस-1138एफ), आरवीसी, 19 मार्च 2007

कप्तान अनूप मिश्रा (वीएस-1139एफ), आरवीसी, 19 मार्च 2007

पी आर वेंकटेश  
कर्नल

## स्थायी आर्मी

## मिलिट्री नर्सिंग सेवा

## (स्थायी कमीशन)

सं. 474, दिनांक 09 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं।

## सेलेक्ट कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तारीख

कर्नल पी लषा रानी (एनआर-16090डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2007

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एमएनएस

## थल सेना विभाग

सं. 475, दिनांक 09 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं।

## नियमित सेना

## पायनियर कोर

## स्थाई सूबेदार मेजर (आर टी)

रैंक, नाम, जेसी सं. और पदोन्नति दिनांक

सूबेदार (आर टी) भक्त राम गौड़ (जेसी-132308डब्ल्यू), 06 मई 2008\*

\*(वरिष्ठता 01 मई 2008 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

## स्थाई सूबेदार (जीडी)/क्लर्क (जीडी)

रैंक, नाम, जेसी नम्बर और पदोन्नति दिनांक

नायब सूबेदार (जीडी) भगवती प्रसाद (जेसी-829311एक्स), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) जय देव घोष (जेसी-829312ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) आर सुबुलज (जेसी-829313एच), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सध्यासीलन सी के (जेसी-829314एल), 21 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार (जीडी) संतोष गोपे चौधरी (जेसी-829315एन), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) इशुनो येमा सिंघा (जेसी-829317आई), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) विशम्बर सिंह (जेसी-829319के), 05 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) गौतम कुमार चौधरी (जेसी-829321एफ), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) संतोष कुमार (जेसी-829322के), 03 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) रतन सिंह (जेसी-829323एम), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अमर सिंह (जेसी-829324पी), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुबोध सागर चौरसिया (जेसी-829325एक्स), 13 मार्च 2008

नायब सूबेदार जनकसिंह, एससी (जीडी) (जेसी-829326ए), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) इलियास लकरा (जेसी-829327एच), 07 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) के कार्तिकेन (जेसी-829328एल), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अवधेश प्रसाद सिंह (जेसी-829329एन), 10 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) ललन सिंह (जेसी-829330एच), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जीडी) बल्लभ प्रसाद पाल (जेसी-829333एल),  
01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अंभ प्रकाश शर्मा (जेसी-829333डब्ल्यू),  
07 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुरेन्द्र पाल (जेसी-829334वाई), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार (जीडी) आशा राम (जेसी-829335एफ), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार (जीडी) सूरज पाल सिंह (जेसी-829336के), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुरेश प्रसाद (जेसी-829339एक्स), 02 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार (जीडी) एम डी अकबरुद्दीन मजुन्दार  
(जेसी-829341पी), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक कुमार एस (जेसी-829342एन),  
01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अंभप्रकाश मिश्रा (जेसी-829343ए), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार (जीडी) राजबौर (जेसी-829345एल), 11 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार (जीडी) रमेश चन्द्र (जेसी-829346एन), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार (जीडी) वसन्त कालू भाई नाना भाई (जेसी-829348वाई),  
01 मई 2008

नायब सूबेदार (जीडी) दीप चन्द (जेसी-829349एफ), 01 मई 2008

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) प्रभात चन्द पटनायक  
(जेसी-829208वाई), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) कलदेव चन्द राणा (जेसी-829234एन),  
01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) दिलीप बेलगांवकर (जेसी-829250एन)  
01 मार्च 2008

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) जय बल्लभुर यादव (जेसी-829262ए),  
01 मार्च 2008

\*वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले गिना।

5वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले गिना।

6वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले गिना।

7वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले गिना।

नायब सूबेदार (जीडी), क्लर्क (जीडी)

रैंक, नाम, आर्मी नम्बर अब जेसी नम्बर और पदोन्नति दिनांक

हवलदार/जीडी बसन्त सिंह (सं. 8031916एन अब  
जेसी-829408एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार/जीडी रामपाल सिंह (सं. 8031946एल अब  
जेसी-829409एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार/जीडी मल्लिकार्जुन सिंह (सं. 8031953एफ अब  
जेसी-829410ए), 01 फरवरी 2008

हवलदार/जीडी मौहम्मद तैयब (सं. 8031978एन अब  
जेसी-829411एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार/जीडी अमर सिंह (सं. 8032034वाई अब  
जेसी-829414डब्ल्यू), 01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी बसील ई (सं. 8030643के अब जेसी-829415वाई),  
01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी तुकाराम बंकेय्याच केन्द्रे (सं. 8030503एक्स अब  
जेसी-829416एफ), 01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी मोहन कुमार के आर (सं. 8031801ए अब  
जेसी-829417के), 01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी सर्वेश कुमार (सं. 8031888एम अब  
जेसी-829418एम), 01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी राम मणी सिंह (सं. 8030711एम अब  
जेसी-829419पी), 01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी सान्ना मनी देव वर्मा (सं. 8030819के अब  
जेसी-829420के), 01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी रूपेय चन्द राध (सं. 8030791पी अब  
जेसी-829421एम), 01 मार्च 2008

हवलदार/जीडी शिव राज पीना (सं. 8030892एन अब  
जेसी-829423एक्स), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी धर्मवीर सिंह छिल्लन (सं. 8031023ए अब  
जेसी-829424ए), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी ओम प्रकाश (सं. 8030705एल अब जेसी-829425एन),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी प्रकाश मोहनजी (सं. 8031991एक्स अब  
जेसी-829426एल), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी श्याम प्रसन्न गोयारी (सं. 8032068एम अब  
जेसी-829427एन), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी पुन सिंह खोतवाल (सं. 8032063एन अब  
जेसी-829428डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी रामोत्तार (सं. 8032130एन अब जेसी-829429वाई),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी डार्जी राम दास (सं. 8030792एक्स अब  
जेसी-829430एन), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी पेन्ना राम (सं. 8029547एच अब  
जेसी-829431डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी महेश प्रसाद (सं. 8030487एल अब जेसी-829432वाई),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी हरमनकर आनू राम (सं. 8030508डब्ल्यू अब  
जेसी-829433एफ), 04 अप्रैल 2008



हवलदार/जीडी बदने भगवान नामदेव (सं. 8030509वाई अब जेसी-829434के), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/जीडी मधु के (सं. 8030669वाई अब जेसी-829435एम), 01 मई 2008

हवलदार/जीडी जय पाल (सं. 8030904एम अब जेसी-829436पी), 01 मई 2008

हवलदार/क्लर्क (जीडी) के वेलयी स्वामी (सं. 8030100एक्स अब जेसी-829406एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार/क्लर्क (जीडी) राजेन्द्र सिंह (सं. 8030165एल अब जेसी-829407ए), 01 फरवरी 2008

हवलदार/क्लर्क (जीडी) रवि प्रकाश पाण्डेय (सं. 8030225पी अब जेसी-829412एल), 01 मार्च 2008

हवलदार/क्लर्क (जीडी) रनबीर सिंह (सं. 8030289ए अब जेसी-829413एन), 01 मार्च 2008

(वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

नायब सूबेदार (म्युजिशियन)

हवलदार/म्युजिशियन के एम मधीवानन (सं. 8030066एच अब जेसी-829422पी), 08 मार्च 2008 \*

\*(वरिष्ठता 03 नवम्बर 2007 से वेतन और भत्तों प्रभाव डाले बिना)

सेना सेवा कोर

(यांत्रिक परिवहन और पूर्ति)

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडीएसडी)

सूबेदार सहदेव सिंह (जेसी-640881के), 01 जनवरी 2008

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडी)

सूबेदार अमृताथ द्विवेदी (जेसी-640657एक्स), 04 फरवरी 2008

सूबेदार राम मूर्ति शर्मा (जेसी-640667एफ), 01 मार्च 2008

सूबेदार मोहम्मद सेराजुल्लाखान (जेसी-640703एफ), 01 मार्च 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी)

सूबेदार प्रभुधन (जेसी-640355एल), 01 जनवरी 2008

सूबेदार नथु लाल (जेसी-640378एम), 22 फरवरी 2008

सूबेदार राजेन्द्र पाण्डे (जेसी-640399एच), 01 मार्च 2008

सूबेदार मेजर (एमटी)

सूबेदार नागराज आर (जेसी-662026पी), 01 फरवरी 2008

सूबेदार रमेश राजु सी (जेसी-662119के), 26 फरवरी 2008

सूबेदार बाला गोपालन वी (जेसी-662167के), 05 मार्च 2008

सूबेदार एस गोपु (जेसी-662168एम), 01 मार्च 2008

सूबेदार (एम टी)

नायब सूबेदार पिल्ली वैकुण्ठ राव (जेसी-663126एम), 18 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम अवतार सिंह (जेसी-663134एल), 15 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शीश राम (जेसी-663151एल), 21 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भजन लाल (जेसी-663154वाई), 18 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरि राम (जेसी-663155एफ), 19 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-663162एक्स), 16 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कंचर लाल चौधरी (जेसी-663224एम), 17 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विस्वानाथन के (जेसी-663284एफ), 16 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मुरलीधर शर्मा (जेसी-663303एफ), 19 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद (जेसी-663304के), 22 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिवाकर दशरथ (जेसी-663305एम), 15 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम चंद्र (जेसी-663308ए), 20 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)



\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)







\* (नायब सूबेदार के रैंक में चेतन और भत्ता को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार चंदा देवी मुंडा (जेसी-663433के), 23 अक्तूबर 2007 \*

नायब सूबेदार (एसकेटी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार डी एस वी राय (सं. 6385685एच अब जेसी-664558एन), 17 सितम्बर 2007 \*

नायब सूबेदार चित्ररत्न मिश्रा (जेसी-663438एच), 15 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एमव)

नायब सूबेदार गुन्नु प्रसाद (जेसी-663442एल), 16 नवम्बर 2007 \*

हवलदार अवतार सिंह (सं. 3382426एम अब जेसी-664676एफ), 29 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जोगेन्द्र नाथ (जेसी-663445आई), 22 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मो. अब्दुल लतिफ (सं. 7773972के अब जेसी-664667ए), 10 सितम्बर 2007 \*

नायब सूबेदार अन्न तिवारी (जेसी-663473एल), 12 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाश चंद (सं. 13886976एम अब जेसी-664705एल), 01 अक्तूबर 2007 \*

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह दहिया (जेसी-663488एन), 01 नवम्बर 2007 \*

हवलदार अनिल कुमार (सं. 13887834एफ अब जेसी-664664एल), 10 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार विश्राम सिंह (जेसी-663555एन), 02 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार भारत धोमा पाटिल (सं. 13887929एफ अब जेसी-664688डब्ल्यू), 26 सितम्बर 2007 \*

नायब सूबेदार मूयां बंरा सिंह (जेसी-663556डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार प्रतुलानाम्बा सरकार (सं. 13889172एच अब जेसी-664640एच), 03 सितम्बर 2007 \*

नायब सूबेदार राम लोचन पाण्डेय (जेसी-663559के), 22 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार आर एस चांदव (जेसी-663682एच), 01 दिसम्बर 2007 \*

हवलदार कैलाश चंद्र त्रिपाठी (सं. 13890377के अब जेसी-664674डब्ल्यू), 25 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम जनम यादव (जेसी-663687एफ), 16 नवम्बर 2007 \*

हवलदार सरोज कुमार सिंह (सं. 13890699के अब जेसी-664673एन), 03 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार वेंगू कुमार नायर जो (जेसी-663688के), 03 नवम्बर 2007 \*

हवलदार साकिर अली (सं. 13890889डब्ल्यू अब जेसी-664657डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)



हवलदार राजन चंद्र दत्ता (सं. 13890971एच अब जेसी-664662एफ), 05 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार महिंद्र प्रसाद (सं. 13891004एच अब जेसी-664671एच), 06 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार धर्म राज राम (सं. 13891005एल अब जेसी-664663के), 15 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राम पाल (सं. 13891355एक्स अब जेसी-664658वाई), 07 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार गनपत सिंह (सं. 13891377डब्ल्यू अब जेसी-664619ए), 14 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार गोपाल जी चौधरी (सं. 13891385पी अब जेसी-664653ए), 05 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राधा क्रिशन नायर (सं. 13891788पी अब जेसी-664700एन), 01 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राम सेवक मिश्री (सं. 13891908एच अब जेसी-664691डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार जोसेफ ए (सं. 13894136एफ अब जेसी-664670ए), 18 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार फूल चंद गुप्ता (सं. 13894429एम अब जेसी-664628एफ), 24 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार सुधीर कुमार सिंह (सं. 13894436एच अब जेसी-664614एफ), 11 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार शिव पूजन सिंह (सं. 13894436एच अब जेसी-664614एफ), 05 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 23 जून 2007 से दी जाएगी)

हवलदार रामा शंकर सिंह (सं. 13894752एफ अब जेसी-664666एक्स), 01 सितम्बर 2007

हवलदार मनोहर लाल (सं. 13894774ए अब जेसी-664656एन), 01 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार प्रवाकर भल (सं. 13894859डब्ल्यू अब जेसी-664611एन), 10 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राजेंद्रा कुमार सिंह (सं. 13895238के अब जेसी-664641एल), 10 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार सत्येंद्रा कुमार तिवारी (सं. 13895264एल अब जेसी-664613वाई), 28 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार हजरत अली (सं. 13895425एच अब जेसी-664660डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 13895538एक्स अब जेसी-664617पी), 16 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार प्रदीप सिंह (सं. 13897074एक्स अब जेसी-664654एन), 13 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार अखिल चंद्रा घोरा (सं. 13897093एच अब जेसी-664672एल), 06 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार सैलींद्रा नाथ जोषा (सं. 13897382एक्स अथ जेसी-664668एच), 13 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राजवंश तिवारी (सं. 13897533एल अथ जेसी-664689वाई), 01 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार ब्याचू लाल यादव (सं. 13897711एच अथ जेसी-664665पी), 04 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार गोण कुमार के सी (सं. 14812056इल्यू अथ जेसी-664699एच), 01 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार शिव पुजन सिंह (सं. 13894439इल्यू अथ जेसी-664609इल्यू), 06 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 23 जून 2007 से दी जाएगी)

हवलदार प्रयाकर बान (सं. 13894859इल्यू अथ जेसी-664611एच), 10 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार प्रतुलनडा सरकार (सं. 13889172एच अथ जेसी-664640एच), 03 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार कल्याण चंद्रा त्रिपाठी (सं. 13890377के अथ जेसी-664674इल्यू), 25 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार सरदेज कुमार सिंह (सं. 13890699के अथ जेसी-664673एच), 03 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार कल्याण चंद्रा (सं. 13886976एम अथ जेसी-664705एल), 01 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार साकिर अली (सं. 13890389इल्यू अथ जेसी-664657इल्यू), 01 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राजेश चंद्रा दत्ता (सं. 13890971एल अथ जेसी-664662एफ), 03 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार धर्म राज राम (सं. 13891005एल अथ जेसी-664663के), 15 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार महेंद्र प्रसाद (सं. 13891004एच अथ जेसी-664671एच), 06 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार राम पाल (सं. 13891355एक्स अथ जेसी-664658वाई), 07 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार गोपाल जो चौधरी (सं. 13891385पी अथ जेसी-664653ए), 05 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार गणपत सिंह (सं. 13891377इल्यू अथ जेसी-664619ए), 14 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 13882426एम अथ जेसी-664676एफ), 29 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 13887834एफ अथ जेसी-664664एम), 10 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार भरत धोपा पालेख (सं. 13887929एफ अथ जेसी-664688इल्यू), 26 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाएगी)

हवलदार रामसेवक मिस्त्री (सं. 13891908एच अब जेसी-664691डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राधा क्रिशन नायर (सं. 13891788पी अब जेसी-664700एन), 01 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जोसफ ए (सं. 13894136एफ अब जेसी-664670ए), 18 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार फूल चंद गुप्ता (सं. 13894429एम अब जेसी-664628एफ), 14 अगस्त 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार प्रवीन सिंह (सं. 13897074एक्स अब जेसी-664654एन), 13 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुधीर कुमार सिंह (सं. 13894436एच अब जेसी-664614एफ), 11 अगस्त 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अखिल चंद्रा घोश (सं. 13897093एच अब जेसी-664672एल), 06 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रामा शंकर सिंह (सं. 13894752एफ अब जेसी-664666एक्स), 01 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 13894774ए अब जेसी-664656एन), 01 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार शैलेंद्र नाथ घोश (सं. 13897382एक्स अब जेसी-664668एन), 13 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राज बंस तिवारी (सं. 13897533एल अब जेसी-664689वाई), 01 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद अब्दुल लतिफ (सं. 7773972के अब जेसी-664667ए), 10 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राजेंद्र कुमार सिंह (सं. 13895238के अब जेसी-664641एल), 10 अगस्त 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सतयेंद्र कुमार तिवारी (सं. 13895264एल अब जेसी-664613वाई), 28 अगस्त 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बाबु लाल यादव (सं. 13897711एच अब जेसी-664665पी), 04 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार हजरत अली (सं. 13895425एच अब जेसी-664660डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 13895538एल अब जेसी-664617पी), 16 अगस्त 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार गोपा कुमार के सी (सं. 13895538एल अब जेसी-664617पी), 16 अगस्त 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार होरा लाल (सं. 13890833के अब जेसी-665010पी), 23 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मदन लाल (सं. 13887272पी अब जेसी-665054एम), 29 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अर्धो राज (सं. 13887285एम अव जेसी-664965एल),  
23 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रान नरेश यादव (सं. 13887532एम अव जेसी-  
665056एक्स), 29 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अचुथान कुट्टी के (सं. 13891466पी अव जेसी-  
665003वाई), 21 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेंद्र कुमार (सं. 13891598एच अव जेसी-665053के),  
29 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पितम सिंह (सं. 13894364के अव जेसी-665007पो),  
01 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रती राम (सं. 13894389डब्ल्यू अव जेसी-665047डब्ल्यू),  
28 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 27 अक्तूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार गौरव नाथ सिंह (सं. 13894404ए अव जेसी-665001एन),  
21 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार श्री निधिराम दुवे (सं. 13894235के अव जेसी-665060ए),  
25 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार हारल बाबू यादव (सं. 13894232डब्ल्यू अव जेसी-  
664940के), 21 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जंग बहादुर सिंह (सं. 13894527एम अव जेसी-  
665064वाई), 28 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बसिंत राम यादव (सं. 13894536एम अव जेसी-  
665004एफ), 16 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरज पाल सिंह (सं. 13894781डब्ल्यू अव जेसी-  
664953एफ), 01 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार चातेश्वर पात्र (सं. 13894876डब्ल्यू अव जेसी-665005के),  
22 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राम शंकर सिंह (सं. 13897391वाई अव जेसी-665057ए),  
29 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मूल चंद भाव्ता (सं. 13897463एक्स अव जेसी-  
664977एल), 23 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार विक्रम चंद्रा (सं. 13895082एक्स अव जेसी-665062एल),  
25 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार धर्मेवीर सिंह (सं. 13897745डब्ल्यू अव जेसी-665061एच),  
29 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार नवीन चंद्रा (सं. 13895544वाई अव जेसी-665052एफ),  
26 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 03 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेंद्र कुमार (सं. 13895621एच अव जेसी-664997आई),  
18 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश पाल (सं. 13895701ए अव जेसी-665062के),  
24 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 13895714एक्स अब जेसी-665068एम), 26 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार फूस देओ यादव (सं. 13897892वाई अब जेसी-665070के), 25 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गजेंद्र सिंह (सं. 13895797एन अब जेसी-665069पी), 26 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बाबु लाल गुर्जर (सं. 13895835वाई अब जेसी-665077एन), 02 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13897935एच अब जेसी-665078डब्ल्यू), 29 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राम पाल सिंह (सं. 13895880एल अब जेसी-665083एफ), 25 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश पाल सिंह (सं. 13897955डब्ल्यू अब जेसी-665084के), 25 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बल राम (सं. 13886693पी अब जेसी-664704एच), 11 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पुरन प्रसाद (सं. 13887166डब्ल्यू अब जेसी-664634ए), 15 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार गिरजा प्रसाद पटेल (सं. 13887500एम अब जेसी-664652एक्स), 06 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 23 जून 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रामायन तिवारी (सं. 13887557एफ अब जेसी-664697एक्स), 12 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रामा चंद मोहंति (सं. 13890498एल अब जेसी-664692वाई), 04 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार धोकल राम मेघाल (सं. 13891433के अब जेसी-664345ए), 09 जुलाई 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चंद्रा बिसवास (सं. 13891943एल अब जेसी-664702एक्स), 29 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13894271पी अब जेसी-664659एफ), 19 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार तिला राम गोदरा (सं. 13895113एम अब जेसी-664693एफ), 30 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अरुण कुमार सिंह (सं. 13895526डब्ल्यू अब जेसी-664679पी), 04 अक्टूबर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश (सं. 13897130एल अब जेसी-664675पी), 29 सितम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक जीडी/एसडी के रैंक में

हवलदार आर श्रीनिवाशन आईनगर (सं. 6379856एन अब जेसी-664987पी), 27 दिसम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार महेन्द्र प्रसाद (सं. 6380003एच अब जेसी-665141ए), 01 मार्च 2008

हवलदार कुनेर बहादुर सिंह (सं. 6380004एल अब जेसी-665132आई),  
16 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 6380089एम अब जेसी-665133एफ),  
21 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 6380115एच अब जेसी-665134के),  
22 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र यादव (सं. 6380144एक्स अब जेसी-665137एक्स),  
01 मार्च 2008

हवलदार विजय कुमार सिंह (सं. 6380110एल अब जेसी-665137एन),  
20 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 6380147एल अब जेसी-665139एच),  
01 मार्च 2008

हवलदार राम कल (सं. 6380124के अब जेसी-665142एच),  
01 मार्च 2008

हवलदार हलापाणे सेन्टी (सं. 6378364एच अब जेसी-665167पी),  
05 मार्च 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार कृष्ण श्रीनिवास शास्त्री (सं. 6379369एन अब जेसी-665140एक्स),  
01 मार्च 2008

हवलदार राम रत्न (सं. 6380145ए अब जेसी-665136पी), 01 मार्च  
2008

हवलदार रमेन्द्रा सिंह (सं. 6380118डब्ल्यू अब जेसी-665138ए),  
01 मार्च 2008

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 6380166डब्ल्यू अब जेसी-665170पी),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार एम डी रणोकुल ईशलाम (सं. 6380159ए अब  
जेसी-665168एच), 01 अप्रैल 2008

हवलदार चन्द्रा कुमार अधिकारी (सं. 6380164एल अब जेसी-665169ए),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार उत्तम कुमार मंडेन (सं. 6380171एफ अब जेसी-665171एक्स),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार सोता राम शमा (सं. 6380215एन अब जेसी-665172ए),  
01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार व्यक्तिगत सहायक के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द्र जय (सं. 14390577एन अब जेसी-665241एल),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार सदीप कुमार गण (सं. 8031553पी अब जेसी-665173एच),  
07 मार्च 2008

हवलदार अवध चिहणी शुक्ला (सं. 14587248डब्ल्यू अब  
जेसी-665174एल), 07 मार्च 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कुन्जुमोन एच (सं. 14593220एम अब जेसी-665180आई),  
08 मार्च 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अजय कुमार (सं. 14593712एल अब जेसी-665240एच),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार दामोदरी गुरुवैया (सं. 15353048ए अब जेसी-665176डब्ल्यू),  
07 मार्च 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गजराज सिंह शर्मा (सं. 14598091एफ अब जेसी-665242एन),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार दिवाकर कुमार बल्लार (सं. 14598091एफ अब  
जेसी-665243डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार राजेन्द्रन जी (सं. 15355351ए अब जेसी-665178एफ),  
07 मार्च 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बीडी राय (सं. 6385426ए अब जेसी-665038पी),  
17 जनवरी 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एम मोहम्मद शलिफ (सं. 14598950एफ अब  
जेसी-665244आई), 01 अप्रैल 2008

हवलदार शकारिया बेसी (सं. 14601762एन अब जेसी-665257डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार जगदीश मोदी (सं. 6383110पी अब जेसी-665143एच),  
23 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अमरेन्द्र कुमार (सं. 9088338वाई अब जेसी-665179के),  
20 मार्च 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शिंदे विजय कुमार कलप (सं. 2479797एच अब  
जेसी-665175एन), 08 मार्च 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जय भगवान (सं. 7430874एक्स अब जेसी-665177वाई),  
07 मार्च 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार लिपिक जोड़ी/एसडी के रैंक में

नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी-643235एक्स), 23 फरवरी 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार स्तन चन्द (जेसी-643240एच), 01 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शान्ती प्रसाद नोटियाल (जेसी-643176डब्ल्यू), 01 मार्च  
2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम बाबू शर्मा (जेसी-642839के), 19 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सनवर मल सैनी (जेसी-643237एच), 01 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सोदागर सिंह जमवाल (जेसी-662870एक्स),  
01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार बौध राज डोगरा (जेसी-643067के), 01 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
04 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्रीकान्त (जेसी-663452पी), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार अजय कुमार झा (जेसी-662869एच), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार इल्मुद्दीन (जेसी-643242एन), 13 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-662868ए), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार शिवाराजन के बी (जेसी-642698ए), 01 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
04 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मुनेश कुमार (जेसी-643120के), 07 अप्रैल 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार लिपिक व्यक्तिगत सहायक के रैंक में

नायब सूबेदार मनमादन के एम (जेसी-663077पी), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार रामफल डिलन (जेसी-663187के), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार रिसपाल चन्द वर्धी (जेसी-663039वाई), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार गोपीनादन नायर जी (जेसी-663081एक्स), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार हरेंद्र कुमार (जेसी-663037एन), 03 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शुभ राम (जेसी-663038डब्ल्यू), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जेसी-663212एक्स), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार सरोज कुमार सिंह (जेसी-663035एच), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार ध्रुव नारायण माइती (जेसी-663036एल), 01 मार्च  
2008

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार मेवा राम (सं. 6382225डब्ल्यू अब जेसी-663793ए),  
28 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पटेल धीरेंद्र बाड़ हिरा बाड़ (सं. 6380253के अब  
जेसी-663794एच), 26 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 6383787ए अब जेसी-663795एल),  
24 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बिम सिंह (सं. 6384346डब्ल्यू अब जेसी-663796एन),  
24 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार प्रलाथन पी सो (सं. 6381204एन अब जेसी-663797एफ),  
24 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 22 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ए अनबलागन (सं. 6384291एक्स अब जेसी-663798वाई),  
26 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अर मोहन राज (सं. 6384125के अब जेसी-663799एफ),  
29 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार के दुर्योधन (सं. 6384481के अब जेसी-663800एल),  
26 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मुकुत विहारी रामा (सं. 6384722वाई अब जेसी-663801एन),  
27 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुमारे शम जनार्ना (सं. 6383170के अब जेसी-663802डब्ल्यू),  
26 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 22 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अमि लाल (सं. 6385253एन अब जेसी-663803वाई),  
26 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दीपकर गय चौधरी (सं. 6384654डब्ल्यू अब जेसी-663804एफ),  
27 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जोरावर सिंह (सं. 6384740एफ अब जेसी-663805के),  
26 दिसम्बर 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सत्यवान सिंह (सं. 6384147एच अब जेसी-663806एफ),  
01 जनवरी 2006

हवलदार अर्जुन कुमार सिंह (सं. 6384627एस अब जेसी-663807पी),  
14 जनवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 6385133पी अब जेसी-663808एक्स),  
02 जनवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार तलगापु शिपावलस (सं. 6385669एल अब  
जेसी-663809ए), 04 जनवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रोहो राम (सं. 6383940एल अब जेसी-663810पी),  
04 जनवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार नवल किशोर प्रसाद (सं. 6384527एफ अब  
जेसी-663811एक्स), जनवरी 2006

हवलदार महादेव हुंडेर (सं. 63897498एन अब जेसी-663812ए),  
03 जनवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार हेमराज सिंह (सं. 6385468एम अब जेसी-663813एच),  
01 जनवरी 2006

हवलदार सिलवा कुमार पी (सं. 6386006एक्स अब जेसी-663814एन),  
02 जनवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बला कृशगन आर (सं. 6386013एच अब  
जेसी-663815एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार एस मनिवन् (सं. 6384096ए अब जेसी-664534के),  
01 अगस्त 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 26 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गोपी चंद महतो (सं. 6384342ए अब जेसी-664535एन),  
01 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बाबर अर्जुन सूचभान (सं. 6384980वाई अब  
जेसी-664536पी), 01 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)



हवलदार प्रदीप आर (सं. 6383962के अब जेसी-664537एक्स),  
01 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रवि कुमार एस (सं. 13891800एल अब जेसी-664555ए),  
03 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अब्दुस सेरीफ (सं. 6384655वाई अब जेसी-664556एच),  
01 अगस्त 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार गाडे मारुती विठ्ठल (सं. 6384975एन अब  
जेसी-664557एल), 01 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार हनुमान सिंह (सं. 6385932एल अब जेसी-664559डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2007 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार उदय कुमार वी (सं. 6385479वाई अब जेसी-664560एल),  
01 सितम्बर 2007

हवलदार रोय पी (सं. 6385370वाई अब जेसी-664561एन),  
01 सितम्बर 2007

हवलदार जेन कुसुमोस (सं. 6385382एन अब जेसी-664562डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2007

हवलदार कोया ईश्वरा राव (सं. 6385778एक्स अब जेसी-664563वाई),  
01 सितम्बर 2007

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 6385567पी अब जेसी-  
664564एफ), 01 सितम्बर 2007

हवलदार विनय कुमार (सं. 6385849एन अब जेसी-664643डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2007

#### तोपखाना रेजिमेंट

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जीडो) के पद में

सूबेदार चौधरी मोहन मधक राव (जेसी-261768पी), 01 मार्च 2008

सूबेदार नायकनवारे धनावत (जेसी-258779डब्ल्यू), 23 मई 2008/  
01 अप्रैल 2008 \*

सूबेदार अशोक कुमार तिवारी (जेसी-257735एम), 30 अप्रैल  
2008/01 अप्रैल 2008 \*

सूबेदार डुंगर सिंह (जेसी-260602एफ), 13 मई 2008/01 अप्रैल  
2008 \*

सूबेदार विजय शंकर सिंह (जेसी-260414ए), 10 मई 2008/01 अप्रैल  
2008 \*

सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-259568ए), 19 मई 2008/01 अप्रैल  
2008 \*

सूबेदार भारत सिंह (जेसी-261353ए), 07 मई 2008/01 मई 2008 \*

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-262593के), 26 मई 2008/01 मई 2008 \*

सूबेदार विश्वनाथ सिंह (जेसी-258041वाई), 25 मई 2008/01 मई  
2008 \*

सूबेदार बिनोद दन कुजर (जेसी-260067एम), 01 मई 2008

सूबेदार गिरीश चन्द्र जोशी (जेसी-260186एच), 01 मई 2008

सूबेदार एस पान्डी (जेसी-261626एक्स), 02 जून 2008/01 जून  
2008 \*

सूबेदार वेणु पी (जेसी-258493एफ), 01 जून 2008

सूबेदार एस सेनधीलानायम (जेसी-260027एल), 05 जून 2008/  
01 जून 2008 \*

सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-260188एन), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

सूबेदार धर्मवीर सिंह शर्मा (जेसी-261419एल), 01 जून 2008

सूबेदार कट्यारे नामदेव सुर्याबा (जेसी-262144पी), 19 जून 2008/  
01 जून 2008 \*

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (एआईजी) के पद में

सूबेदार प्रीतम चन्द (जेसी-258257ए), 05 मई 2008/01 मई 2008 \*

सूबेदार रामन लाल (जेसी-258265वाई), 12 जून 2008/01 जून  
2008 \*

सब्सटेंटिव सूबेदार (एआईजी) के पद में

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-266485एक्स), 07 मार्च 2008/  
01 मार्च 2008 \*

नायब सूबेदार इश्वराम्पा टी (जेसी-266511एन), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार तिवारी (जेसी-266628एम), 01 अप्रैल  
2008

नायब सूबेदार दिस सुख (जेसी-266626एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार सीतारामय्या वालुवोलू (जेसी-266897वाई), 03 मई  
2008/01 मई 2008 \*

नायब सूबेदार चौधरी रविन्द्रनाथ बालासो (जेसी-266893एच),  
02 जून 2008/01 जून 2008 \*

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह शेखावत (जेसी-267019पी), 02 जून  
2008/01 जून 2008 \*

नायब सूबेदार शैलार चन्द्रा कान्त राजाराम (जैसी-266898एफ), 03 जून 2008/01 जून 2008\*

नायब सूबेदार ब्रह्माद कुमार मोन (जैसी-267020के), 02 जून 2008/01 जून 2008\*

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जैसी-267022पी), 01 जून 2008

नायब सूबेदार पी कुमारसेन (जैसी-267023एक्स), 01 जून 2008

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जैसी-267987एम), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार उत्तम कुमार सिन्हा (जैसी-268673एक्स), 19 मई 2008/18 फरवरी 2008\*

नायब सूबेदार धर्मवीर (जैसी-267825एफ), 08 मई 2008/01 अप्रैल 2008\*

नायब सूबेदार निकम बालू सांभा (जैसी-269025एफ), 12 मई 2008/01 मई 2008\*

नायब सूबेदार जेकर सुनील राजाराम (जैसी-268017डब्ल्यू), 09 जून 2008/01 मई 2008\*

नायब सूबेदार पुंडलीक गोडप्पा गोई (जैसी-267876पी), 31 मई 2008/01 मई 2008\*

नायब सूबेदार पाटील अशोक महादेव (जैसी-266166एल), 15 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार सुभा मोहन रेड्डी (जैसी-268270एक्स), 06 नवम्बर 2007/06 अगस्त 2007\*

नायब सूबेदार अम्बे लहु भागोजी (जैसी-267288एफ), 19 अप्रैल 2008/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार नर सिंह (जैसी-268641पी), 14 मई 2008/01 फरवरी 2008\*

नायब सूबेदार गुरिंह बयन दिनकर (जैसी-268377एम), 02 मई 2008/01 मई 2008\*

नायब सूबेदार एजेन्द्र प्रसाद (जैसी-266847एम), 11 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार मोन्द मिह (जैसी-267946एच), 08 नवम्बर 2007/01 अगस्त 2007\*

नायब सूबेदार जगदीश सिंह शेखावत (जैसी-266685एम), 07 जनवरी 2008/01 अगस्त 2007\*

नायब सूबेदार नित्यानन्द (जैसी-267668एम), 27 मई 2008/01 फरवरी 2008\*

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जैसी-268186एक्स), 08 मई 2008/01 मार्च 2008\*

(\*न्येष्ठता धाम)

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार महेंद्र सिंह (सं. 14384658एक्स अब जैसी-271841डब्ल्यू), 12 मई 2008/06 नवम्बर 2007\*

हवलदार मुना लाल (सं. 14479351एक्स अब जैसी-271842वाई), 22 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 14377927डब्ल्यू अब जैसी-271843एफ), 15 मई 2008/01 फरवरी 2008\*

हवलदार बलकार सिंह (सं. 15108486एम अब जैसी-271844के), 12 मई 2008/01 फरवरी 2008\*

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 14384882के अब जैसी-271845एम), 24 मई 2008/01 मार्च 2008\*

आरएचएम राजवार् सिंह (सं. 14391053वाई अब जैसी-271846पी), 22 अप्रैल 2008/13 मार्च 2008\*

हवलदार सकातराज सिंह (सं. 14499743एम अब जैसी-271847एक्स), 22 मई 2008/21 मार्च 2008\*

हवलदार बलवान सिंह (सं. 14399825ए अब जैसी-271848ए), 04 मई 2008/30 मार्च 2008\*

हवलदार आनंद कुमार (सं. 14487618डब्ल्यू अब जैसी-271849एच), 27 मई 2008/01 मार्च 2008\*

हवलदार विजय पाल (सं. 14408693एफ अब जैसी-271850एक्स), 19 मई 2008/10 अप्रैल 2008\*

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14498246डब्ल्यू अब जैसी-271851एम), 18 मई 2008/14 अप्रैल 2008\*

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 14382689वाई अब जैसी-271852एच), 30 अप्रैल 2008

हवलदार पाटील निलेश अशोक (सं. 15120370एच अब जैसी-271853एल), 13 मई 2008/01 मई 2008\*

हवलदार जार्ज वर्गीन (सं. 14499064पी अब जैसी-271854एम), 17 मई 2008/15 मई 2008\*

बीएचएम बलवीर सिंह (सं. 14371431एल अब जैसी-271855डब्ल्यू), 02 जून 2008/01 जून 2008\*

हवलदार मोहम्मद मर्गीग अहमद (सं. 15104211एफ अब जैसी-271856वाई), 02 जून 2008/01 जून 2008\*

आरएचएम पाटील दिवक हेमराज (सं. 15123619पी अब जैसी-271857एफ), 26 मई 2008/16 मई 2008\*

हवलदार एस एच चन्द्र बाबू (सं. 14409726एम अब जैसी-271858के), 27 मई 2008/16 मई 2008\*

आरएचएम रामावर सिंह (सं. 15111113के अब जैसी-271859एम), 31 मई 2008/16 मई 2008\*

हवलदार प्रसन्नता कुमार (सं. 14417769एक्स अब जैसी-271860एफ), 24 मई 2008/16 मई 2008\*

बीएचएम उषा राम (सं. 14408654एच अब जैसी-271861के), 01 जुलाई 2008/16 मई 2008\*

हवलदार शिवकुमार चौ (सं. 14412983डब्ल्यू अब जेसी-271862एम), 31 मई 2008/16 मई 2008 \*

हवलदार रवीन्द्र कुमार (सं. 15125084एस अब जेसी-271863पी), 02 जून 2008/16 मई 2008 \*

हवलदार श्री कृष्ण (सं. 14405863पी अब जेसी-271864एक्स), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार हवा सिंह (सं. 15122865ए अब जेसी-271865ए), 06 जून 2008/01 जून 2008 \*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

हवलदार दया राम (सं. 14380973डब्ल्यू अब जेसी-271696के), 01 मार्च 2008/01 नवम्बर 2007 \*

हवलदार शैली शर्मा (सं. 15108735ए अब जेसी-271697एम), 14 फरवरी 2008/26 नवम्बर 2007 \*

हवलदार मुनीबान्ती पौ (सं. 14486315पी अब जेसी-271698पी), 28 फरवरी 2008/26 नवम्बर 2007 \*

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 14485728एम अब जेसी-271699एक्स), 01 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 \*

हवलदार सदेश प्रसाद चामोला (सं. 14494922एच अब जेसी-271700एफ), 28 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार राम जनम सिंह (सं. 14384180एल अब जेसी-271701के), 30 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार युधीष्ठिर साहिबा (सं. 14372218एक्स अब जेसी-271702एम), 01 मार्च 2008/24 जनवरी 2008 \*

हवलदार ताम्मी रेड्डी रामाकृष्णा (सं. 14111343एक्स अब जेसी-271703पी), 01 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार सी राजनगम (सं. 15106145एच अब जेसी-271704एक्स), 18 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार सन्दीप कुमार (सं. 14395170एफ अब जेसी-271705ए), 10 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार अन्तु नारायण शर्मा (सं. 14397362एक्स अब जेसी-271706एच), 26 मार्च 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार परीमल कुमार घोष (सं. 14379123ए अब जेसी-271707एल), 23 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार बनवारी लाल (सं. 15109280एफ अब जेसी-271708एम), 19 मार्च 2008/10 फरवरी 2008 \*

हवलदार टी गणेशन (सं. 15111127के अब जेसी-271609डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2008/19 फरवरी 2008 \*

हवलदार धनो राम (सं. 14489008एच अब जेसी-271710एल), 19 मार्च 2008/01 मार्च 2008 \*

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 14492733ए अब जेसी-271711एम), 17 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 14382183ए अब जेसी-271712डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2008/01 जून 2007 \*

हवलदार गुरबक्श सिंह (सं. 14369545एक्स अब जेसी-271713वाई), 07 अप्रैल 2008/01 अगस्त 2007 \*

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14493100वाई अब जेसी-271714एफ), 21 फरवरी 2008/01 नवम्बर 2007 \*

आरएचएम सत्यवीर सिंह (सं. 14492224एफ अब जेसी-271715के), 28 जनवरी 2008/01 नवम्बर 2007 \*

हवलदार सुरेन बोरा (सं. 14394146वाई अब जेसी-271716एम), 22 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार कदम संजय श्रीपतराव (सं. 14382065एम अब जेसी-271717पी), 02 फरवरी 2008/25 जनवरी 2008 \*

हवलदार हिमांगशू बिश्वास (सं. 14411782एल अब जेसी-271718एक्स), 28 अप्रैल 2008/21 मार्च 2008 \*

आरएचएम राकेश कुमार (सं. 14368084एम अब जेसी-271719ए), 11 अप्रैल 2008/24 मार्च 2008 \*

हवलदार एम माथीयालगन (सं. 14388430वाई अब जेसी-271720पी), 01 अप्रैल 2008

बीएचएच बन्सी लाल यादव (सं. 14388244एच अब जेसी-271721एक्स), 05 मई 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार जी रंगा सामी (सं. 13685851वाई अब जेसी-271722ए), 03 अप्रैल 2008

हवलदार सुभाष चन्द्र बहुराय (सं. 15106385ए अब जेसी-271723एच), 14 मई 2008/04 अप्रैल 2008 \*

हवलदार बन्सी राम गुप्ता (सं. 14374614एम अब जेसी-271724एल), 07 मई 2008/12 अप्रैल 2008 \*

हवलदार तिलक सिंह (सं. 14379485एफ अब जेसी-271725एम), 01 मई 2008

हवलदार राकेश सिंह शिकारधार (सं. 15119363ए अब जेसी-271726डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार ताजुद्दीन (सं. 14386716पी अब जेसी-271727वाई), 01 जून 2008 \*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सर्टेंटिव सूबेदार मेजर (जी.डो.) के पद में

सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-297292वाई), 01 मार्च 2008

सूबेदार हर सिंह चमेल (जेसी-297276एफ), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार क्रिशन सिंह (जेसी-297464एच), 01 मई 2008

सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-296384वाई), 01 मई 2008

सूबेदार बिल्लू सिंह शेखावत (जेमो-296595एफ), 01 मई 2008  
 सूबेदार चौ गणेशन (जेमो-297338डब्ल्यू), 01 जून 2008  
 सम्बन्धित सूबेदार मंजर (ए. आई. जी.) के पद में  
 सूबेदार बाला दत्त जोशी (जेमो-297122पी), 01 जून 2008  
 सम्बन्धित सूबेदार (जी.डी.) के पद में  
 नायब सूबेदार शिवानंद ईरप्पा होंडुर (जेमो-299324पी), 12 अक्तूबर 2007/30 जुलाई 2007×  
 नायब सूबेदार दशरथ सिंह यादव (जेमो-299381डब्ल्यू), 11 अक्तूबर 2007/30 जुलाई 2007×  
 नायब सूबेदार शंकर चंद (जेमो-299475एन), 05 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007×  
 नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेमो-298108पी), 12 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेमो-298479एक्स), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेमो-298513एम), 01 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार मुचड सिंह (जेमो-298529एक्स), 11 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार राम दाश राम (जेमो-298589एम), 01 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार लाल सिंह (जेमो-298643पी), 10 मई 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार पुन राम भांड (जेमो-298796वाई), 01 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार नथुनो लाह (जेमो-298921एक्स), 02 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार वृज बासी (जेमो-298914एफ), 16 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार तेज भान (जेमो-299200ए), 14 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेमो-299226पी), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार करन सिंह यादव (जेमो-299283डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार इंदु प्रसाद राय (जेमो-299366एफ), 01 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार राजेंद्र प्रताप सिंह (जेमो-298693ए), 11 फरवरी 2008/31 जनवरी 2008×  
 नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेमो-298979पी), 29 मार्च 2008/01 फरवरी 2008×  
 नायब सूबेदार अरुण गोविंद कल्ल (जेमो-298971एच), 08 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008×

नायब सूबेदार प्रमोद सिंह (जेमो-299181ए), 29 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008×  
 नायब सूबेदार वनश्याम लाल मीश (जेमो-298374एन), 01 अप्रैल 2008  
 नायब सूबेदार मोहिंदर मिश्र (जेमो-298558एम), 01 अप्रैल 2008  
 नायब सूबेदार कलाश गह (जेमो-298619वाई), 12 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 नायब सूबेदार रिशपाल सिंह (जेमो-298685एफ), 14 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह (जेमो-298905ए), 01 अप्रैल 2008  
 नायब सूबेदार गोविंद सिंह (जेमो-299108एफ), 04 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 नायब सूबेदार शिव भागवन सिंह यादव (जेमो-299178ए), 01 अप्रैल 2008  
 नायब सूबेदार शालीग्राम शंभूराव अर्याव (जेमो-299477वाई), 01 अप्रैल 2008  
 नायब सूबेदार सुरेंद्र प्रताप (जेमो-299488एल), 04 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 नायब सूबेदार चंद्रसेखरन नायर टी पी (जेमो-299221डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2008/03 अप्रैल 2008×  
 नायब सूबेदार नोमल गोगोटे (जेमो-298689एक्स), 03 मई 2008/23 अप्रैल 2008×  
 नायब सूबेदार दिलजीत मिश्र (जेमो-298608एम), 01 मई 2008  
 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेमो-298927वाई), 01 मई 2008  
 नायब सूबेदार जनार्दन भट्ट (जेमो-299056डब्ल्यू), 22 मई 2008/01 मई 2008×  
 नायब सूबेदार हरी सिंह मिश्र (जेमो-299099एल), 02 मई 2008/01 मई 2008×  
 नायब सूबेदार ए. वेंकटेश्वरा रेड्डी (जेमो-298406एल), 02 जून 2008/01 जून 2008×  
 सम्बन्धित सूबेदार (ए.आई.जी.) के पद में  
 नायब सूबेदार शिव सिंह (जेमो-298698वाई), 16 अप्रैल 2008/06 अप्रैल 2008×  
 सम्बन्धित सूबेदार (लिफ्ट.) के पद में  
 नायब सूबेदार जोगिंदर गह (जेमो-298874एल), 01 अप्रैल 2008  
 नायब सूबेदार राम अन्तर (जेमो-298878एफ), 01 मई 2008  
 नायब सूबेदार रविंद्रन नाथर एल (जेमो-298879के), 01 जून 2008/01 जून 2008×

नायब सूबेदार सुरेंद्र नाथ डेका (जेसी-298950एम), 01 जून 2008  
 नायब सूबेदार उदय प्रताप सिंह चौहान (जेसी-298951पी), 01 जून 2008  
 नायब सूबेदार रामदेव सिंह (जेसी-298952एक्स), 02 जून 2008/  
 01 जून 2008×  
 ×(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

#### नायब सूबेदार के पद में

हवलदार नागेंद्र सिंह (सं. 14379426पी अब जेसी-300274के),  
 25 जनवरी 2008/30 नवम्बर 2007×  
 बीएचएम राकेश कुमार लखन पाल (सं. 14400671एन अब  
 जेसी-300275एम), 21 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008×  
 हवलदार सुजाथन नायर (सं. 14384469एन अब जेसी-300276पी),  
 27 मार्च 2008/28 जनवरी 2008×  
 बीएचएम एम अरुमुगम (सं. 14491713ए अब जेसी-300277एक्स),  
 08 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008×  
 बीएचएम बीरपाल सिंह (सं. 14383111एच अब जेसी-300278ए),  
 11 फरवरी 2008/08 फरवरी 2008×  
 हवलदार मुंडे दिलीप सोपान (सं. 14385997के अब जेसी-300279एच),  
 01 अप्रैल 2008/08 फरवरी 2008×  
 हवलदार राकेश बाली (सं. 14391266एम अब जेसी-300280एक्स),  
 21 मार्च 2008/26 फरवरी 2008×  
 बीएचएम शिव देवी चौबे (सं. 14383615डब्ल्यू अब जेसी-300281ए),  
 01 मार्च 2008  
 हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 14381878एन अब जेसी-300282एच),  
 01 मार्च 2008  
 हवलदार पुनावासी यादव (सं. 14388550एक्स अब जेसी-300283एल),  
 08 मार्च 2008/01 मार्च 2008×  
 हवलदार मंडाला चिना कौडला राव (सं. 14393819डब्ल्यू अब  
 जेसी-300284एन), 05 अप्रैल 2008/11 मार्च 2008×  
 बीएचएम गंभीर सिंह (सं. 14373600ए अब जेसी-300285डब्ल्यू),  
 01 अप्रैल 2008  
 बीएचएम भीपाल यादव (सं. 14388255पी अब जेसी-300286वाई),  
 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार बीरोनजोय बासुमहारी (सं. 14372129के अब  
 जेसी-300287एफ), 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार धुमाल सोनोजी रामचंद्र (सं. 15101862एम अब  
 जेसी-300288के), 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार चंदर भान (सं. 14374826एक्स अब जेसी-300289एम),  
 01 अप्रैल 2008

हवलदार भूपेंद्र सिंह (सं. 14370570एच अब जेसी-300290एफ),  
 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार एस मेगानाथन (सं. 15101896ए अब जेसी-300291के),  
 01 अप्रैल 2008  
 बीएचएम राम औतार (सं. 14380443एफ अब जेसी-300292एम),  
 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार मोहिंदर सिंह (सं. 14381451एम अब जेसी-300293पी),  
 01 अप्रैल 2008  
 बीएचएम शिंगारा सिंह (सं. 14387151एफ अब जेसी-300294एक्स),  
 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार रामजी लाल (सं. 15102882एम अब जेसी-300295ए),  
 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार रनबीर सिंह (सं. 14381814एल अब जेसी-300296एच),  
 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार मनोज कुमार (सं. 14387585एफ अब जेसी-300297एल),  
 01 अप्रैल 2008  
 बीएचएम अंग्रेज सिंह (सं. 14378889एक्स अब जेसी-300298एन),  
 12 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 बीएचएम हरपाल सिंह (सं. 14379012एच अब जेसी-300299डब्ल्यू),  
 15 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 हवलदार जी मुनीसामी (सं. 14386291एफ अब जेसी-300300ए),  
 15 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 हवलदार हरिश चंद (सं. 14385740वाई अब जेसी-300301एच),  
 18 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×  
 हवलदार वंजा कुमार एस (सं. 14382652एक्स अब  
 जेसी-300302एल), 09 अप्रैल 2008/08 अप्रैल 2008×  
 बीएचएम लक्ष्मन अल्लोरी (सं. 14388496पी अब जेसी-300303एन),  
 15 अप्रैल 2008/08 अप्रैल 2008×  
 आरएचएम प्रभाष चंद्र चौधरी (सं. 14413398एच अब जेसी-300304डब्ल्यू),  
 10 मार्च 2008/01 मार्च 2008×  
 आरएचएम वी धनापाल (सं. 14395099वाई अब जेसी-300305वाई),  
 01 अप्रैल 2008  
 आरएचएम संतोष कुमार के बी (सं. 14406756ए अब  
 जेसी-300306एफ), 01 अप्रैल 2008  
 आरएचएम मुख़ा राम यादव (सं. 14391328एफ अब  
 जेसी-300307के), 01 अप्रैल 2008  
 हवलदार सुरेंद्र महाराणा (सं. 15103636एन अब जेसी-300308एम),  
 01 अप्रैल 2008  
 आरएचएम करांडे मोहन नामदेव (सं. 15764468एन अब  
 जेसी-300309पी), 04 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008×

आरएचएम शिवन्दर सिंह ( सं. 14412472एम अब जेसी-300310के ),  
12 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

आरएचएम सुनील कुमार के ओ ( सं. 15763902एच अब  
जेसी-300311एम ), 07 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

आरएचएम राज कुमार ( सं. 15762953के अब जेसी-300312पी ),  
05 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

आरएचएम सत्यवीर सिंह ( सं. 14405431ए अब जेसी-300313एक्स ),  
15 अप्रैल 2008/06 अप्रैल 2008\*

आरएचएम जसवीर सिंह ( सं. 14399600एक्स अब जेसी-300314ए ),  
01 मई 2008

हवलदार बृजेश कुमार ( सं. 14381359एन अब जेसी-300315एच ),  
01 मई 2008

हवलदार सिवान पिल्लै एन ( सं. 15102528एक्स अब जेसी-  
300316एल ), 01 मई 2008

आरएचएम मीर सिंह ( सं. 14410273ए अब जेसी-300317एन ),  
22 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

पी राना शारंगी  
अवर सचिव

सं. 476, तारीख 9 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति  
करते हैं :--

नियमित सेवा:

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर पदोन्नति

बीएचएम सुरेन्द्र कुमार नायक ( सं. 4264756के अब जेसी  
826194एम ), 12 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

बीएचएम बलवान सिंह ( सं. 17895594एम अब जेसी-826195पी ),  
01 जनवरी 2008

\*चरोयता दिनांक

प्रीत पाल सिंह  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं. 477, दिनांक 10 सितम्बर 2008- 05 अप्रैल 2008 को भारत के  
राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'  
सैनिक दत्त चिकित्सा कोर ( रक्षार्थ बर्मेशन ) उपशीर्षक 'विंग कमांडर से  
ग्रुप कैंप्टन के पद पर' निम्नलिखित अक्षरों के लिए :--

( क ) डीआर-10317एच ( एफ-17798 ) जे के जैन 19 मई 2005

( ख ) डीआर-10314पी ( एफ-26027 ) ए के शर्मा 07 जुलाई 2005

( ग ) डीआर-10334एम ( एफ-18549 ) आर के शर्मा 30 नवम्बर  
2006

के लिए ( उपशीर्षक ) विंग कमांडर से ग्रुप कैंप्टन के पद पर

पड़ा जाए--विंग कमांडर से ग्रुप कैंप्टन के पद पर ( सी एस )

डी के तनेया  
मेजर जनरल  
एडीजीडीएम

वित्त विभाग

सं. 478, दिनांक 10 सितम्बर 2008 - रक्षा मंत्रालय ( वित्त विभाग ) में  
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री आर.सी. चोपड़ा का  
दिनांक 28 जून 2008 को देहांत हो गया है :

रमेश कुमार  
निदेशक : राज :

MINISTRY OF DEFENCE  
New Delhi, the 20th September 2008

ARMY BRANCH

No. 470, the 8th September 2008—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)

To be Captain (On Probation)

Capt (Ms) Ankurita Sharma (DS-12305M), 01 Apr 2008

(With seniority for pay and promotion from 01 October 2007 includes 06 months ante date for paid job of Junior Resident in Himachal Pradesh Govt Dental Colleges & Hospital, Shimla, which will not count for gratuity).

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain (On Probation)

Munish Verma (DS-12262H), AD Corps, 31 Dec 2007

(With seniority for pay and promotion from 30 June 2007 includes 06 months ante date for paid job of House Surgeon in Dept of Periodontics in Himachal Pradesh Govt Dental Colleges & Hospital, Shimla, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazetted of India dated 28 June 2008 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled.

D K TANEJA  
Maj Gen  
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 471, dated 8th September 2008.—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 08 Mar 2008, on relinquishing his Short Service Commission wef 08 Mar 2008 :—

SS No, IC No allotted, Name and Arms/Services

(SS-40135) (IC-65890Y), Aubrey L Bird, ASC

(b) The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows :—

(i) The date of Increments of pay - 08 Mar 2003

(ii) The date for promotion - 08 Nov 2003

(c) The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer vis-a-vis SSCOs granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

V S RANADE

Col

Col MS 7

REGULAR ARMY  
MINISTRY OF DEFENCE

MILITARY NURSING SERVICES  
(PERMANENT COMMISSION)

No. 472, dated 8th September 2008.—The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 30 Jan 2006 [(Seniority from 30 Jan 2005 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing))] :—

To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number and Date of Birth

Lt Bencey K Money (NR-21525X), 21 Dec 1981

Lt Urmila (NR-21526A), 10 Mar 1978

Lt Swapnil Singh (NR-21527H), 07 Mar 1980

Lt Seema Kumari (NR-21528L), 24 Jun 1979.

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 28 Jul 2004 [(Seniority from 28 Jul 2003 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing))] :—

To be Lt on Probation

Rank, Name, NR Number and Date of Birth

Lt Sunita Kumari (NR-21314P), 04 May 1980

Lt Smitha K (NR-21315X), 03 Dec 1978

Lt Priya Nair (NR-21316A), 01 Sep 1981

Lt Sikha Celine Rai (NR-21317H), 27 Nov 1980

Lt Vishalaxi Totkar (NR-21318L), 12 Sep 1981

Lt Jasbir Kaur (NR-21319N), 08 Sep 1980

Lt Pooja (NR-21320H), 26 Jun 1982

Lt Neetu Rani (NR-21321L), 01 Oct 1980

Lt Deepti Sharma (NR-21322N), 14 Dec 1981

Lt Tushara Nair (NR-21323W), 19 Jun 1981

Lt Soniya Mohan K (NR-21324Y), 08 Dec 1979  
 Lt Amrit Pal Kaur (NR-21325F), 19 Apr 1980  
 Lt Jyotsana (NR-21326K), 20 Nov 1979  
 Lt Sonia Saklani (NR-21327M), 13 Aug 1981  
 Lt Jyothi P Menon (NR-21328P), 07 Dec 1981  
 Lt Anugrah Charan (NR-21329X), 29 Mar 1981  
 Lt Seema Hoodda (NR-21330M), 29 Nov 1981  
 Lt Chandrima Bhatt Acharya (NR-21331P), 10 Mar 1981  
 Lt Arti Sharma (NR-21332X), 12 Apr 1981  
 Lt S Shalin (NR-21333A), 24 Jan 1982  
 Lt Nirupama Chaudhan (NR-21334H), 25 Aug 1977

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3 98 with effect from 21 Aug 2006 [(Seniority from 21 Aug 2005 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)) :

To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number and Date of Birth  
 Lt Siva Priya (NR-21529N), 28 May 1981  
 Lt Bhawana Bhuradwanj (NR-21530H), 19 May 1984  
 Lt Meenakshi Bajwa (NR-21531L), 14 Jun 1984  
 Lt Shrabati Roy (NR-21532N), 01 Aug 1982  
 Lt Neeraj Chaudhary (NR-21533W), 26 Mar 1983  
 Lt Sandeep Kumar (NR-21534Y), 30 Jul 1983  
 Lt Vidhya P (NR-21535F), 05 May 1984  
 Lt Vineeta Singh (NR-21536K), 09 Jul 1981  
 Lt Kavita Gurung (NR-21537M), 27 Jul 1980  
 Lt Pompa Mukherjee (NR-21538P), 25 Feb 1982  
 Lt Liji Joseph (NR-21539X), 23 Mar 1982  
 Lt Saminder Malik (NR-21540M), 28 Sep 1984  
 Lt Aruna Aravindan (NR-21541P), 29 Dec 1982  
 Lt Bijaya Saha (NR-21542X), 01 May 1984  
 Lt Vajjanti Matwal (NR-21543A), 07 Jan 1982  
 Lt Litu Varghese (NR-21544H), 02 Jan 1983  
 Lt Nishi (NR-21545I), 26 Jan 1982  
 Lt Arzoo Vohra (NR-21546N), 07 Jul 1984  
 Lt Tanu Jadli (NR-21547W), 24 Nov 1982  
 Lt Dapple D Wankhar (NR-21548Y), 25 Oct 1979  
 Lt Jagriti Sukhpal (NR-21549F), 08 Jul 1982

Lt Richa Rai (NR-21550W), 24 Mar 1982  
 Lt Teena Dash (NR-21551Y), 02 Feb 1978  
 Lt Maya Nair (NR-21552F), 05 Dec 1983  
 Lt Poonam Kashyap (NR-21553K), 20 Aug 1983  
 Lt Kabita Das (NR-21554M), 05 Jul 1982  
 Lt M Priya (NR-21555P), 11 Nov 1980  
 Lt Anita Nair Ashokan (NR-21556X), 07 Sep 1983

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3 98 with effect from 03 Dec 2003 [(Seniority from 03 Dec 2002 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)) :

To be Lt on Probation

Rank, Name, NR Number and Date of Birth  
 Lt Rohini Dewan (NR-21342N), 15 Dec 1977  
 Lt Agiwanliu Newman (NR-21313W), 01 Mar 1981

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3 98 with effect from 03 Sep 2004 :

To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number and Date of Birth  
 Lt Dhanya P Nair (NR-21335L), 01 Jun 1983  
 Lt Rupali Sharma (NR-21336N), 04 Oct 1981  
 Lt Neetu Sharma (NR-21337W), 26 Sep 1982  
 Lt Kiran Singh (NR-21338Y), 03 Oct 1982  
 Lt Deepa Simon (NR-21339I), 25 Oct 1982  
 Lt AB Annapurna (NR-21340W), 25 Oct 1980  
 Lt Sherly Yohanan (NR-21341Y), 20 Jan 1983  
 Lt Mamta Pant (NR-21342F), 10 Mar 1982  
 Lt Mary Remi KA (NR-21343K), 21 May 1981  
 Lt Preeti Bhatt (NR-21344M), 30 Jun 1981  
 Lt Anshu Malik (NR-21345P), 01 Aug 1982  
 Lt Amritha (NR-21346N), 02 Mar 1983  
 Lt Pranitha Chhetri (NR-21347A), 17 Aug 1983  
 Lt Charu Gupta (NR-21348H), 11 Aug 1983  
 Lt Usha Thingbaijan (NR-21349L), 27 Feb 1983  
 Lt Monisha Nath (NR-21350A), 08 Sep 1982  
 Lt Mahua Upadhyay (NR-21351H), 28 Nov 1976  
 Lt Sreena Puspagadhan (NR-21352L), 22 Dec 1982



Lt Preeti (NR-21353N), 07 Jun 1979  
 Lt Binita Das (NR-21354W), 15 Jun 1980  
 Lt Sarita Nuwal (NR-21355Y), 24 Jan 1979  
 Lt Ambily Kutty (NR-21356F), 21 May 1980  
 Lt Abhilasha Kumari (NR-21357K), 25 Aug 1983  
 Lt Seema Bishi (NR-21358M), 10 Mar 1978  
 Lt Shanti Jakhwal (NR-21359A), 05 Aug 1978  
 Lt Bandana (NR-21360K), 06 Aug 1978  
 Lt Poonam Yadav (NR-21361M), 01 Jan 1982  
 Lt Gishamol Sebastian (NR-21362P), 01 Jun 1983  
 Lt Monika Sharma (NR-21363X), 09 Jul 1983  
 Lt Renu Singh (NR-21364A), 16 Jul 1979  
 Lt A Bini Varghese (NR-21365H), 19 Jul 1981  
 Lt Shazain Cherian (NR-21366L), 28 Oct 1981  
 Lt Gurmeet Kaur (NR-21367N), 09 Dec 1976  
 Lt Sojia Joseph (NR-21368W), 28 Jan 1983  
 Lt Nishi Chandran (NR-21369Y), 03 Nov 1980  
 Lt Siji Bhaskaran (NR-21370N), 15 Jan 1982  
 Lt Ginu P Abraham (NR-21371W), 16 Mar 1982  
 Lt Kiran Kumari (NR-21372Y), 28 Oct 1980  
 Lt Swati V Dalvi (NR-21373F), 20 Mar 1983  
 Lt Nita Chakraborty (NR-21374K), 08 Jun 1983  
 Lt Patra Dey (NR-21375M), 06 Sep 1982  
 Lt Pinki (NR-21376P), 26 Oct 1980  
 Lt Jayashree S (NR-21377X), 10 May 1982  
 Lt Rekha Chandran (NR-21378A), 01 Mar 1983  
 Lt Archana Kumari Sharma (NR-21379H), 05 Apr 1981  
 Lt Mamta Rawat (NR-21380Y), 13 Jan 1982  
 Lt Madhu Sangeeta Toppo (NR-21381A), 30 Mar 1982  
 Lt Rakhee Raj (NR-21382H), 07 Aug 1982  
 Lt G Lata (NR-21383L), 21 May 1982  
 Lt Remya Raveendran (NR-21384N), 05 Aug 1982  
 Lt Rakhee (NR-21385W), 30 Aug 1982  
 Lt Mamta Dimri (NR-21386Y), 24 Jun 1983

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med)

dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 25 Aug 2005 :—

#### To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number and Date of Birth

Lt Kalpna Kanwar (NR-21439M), 30 May 1983  
 Lt Kiran Singh (NR-21440F), 11 Sep 1984  
 Lt Anuradha Gaur (NR-21441K), 05 Nov 1982  
 Lt Akansha Sharma (NR-21442M), 03 Aug 1983  
 Lt Anu Sharma (NR-21443P), 22 Nov 1983  
 Lt Lalita Alriya (NR-21444X), 20 Jan 1984  
 Lt Mousumi Pramanick (NR-21445A), 20 Aug 1980  
 Lt Jatinder Kaur (NR-21446H), 14 Dec 1983  
 Lt Remi Michael (NR-21447L), 01 Aug 1982  
 Lt Nisa Philip K (NR-21448N), 12 Sep 1983  
 Lt Kaviya Balu (NR-21449W), 08 May 1983  
 Lt Sumith G (NR-21450L), 29 Sep 1953  
 Lt Deepa Dabas (NR-21451N), 08 Aug 1983  
 Lt Shalini (NR-21452N), 15 Feb 1984  
 Lt Geeta Kumari Chahar (NR-21453Y), 24 May 1982  
 Lt Jinu Jhon (NR-21454F), 22 Aug 1983  
 Lt Pooja Dukare (NR-21455K), 20 Nov 1983  
 Lt Saminder Kaur (NR-21456M), 07 Dec 1980  
 Lt Ashu Rana (NR-21457P), 12 Dec 1980  
 Lt Anita Semwal (NR-21458X), 20 Dec 1980  
 Lt Seeja Kurup (NR-21459A), 11 Jan 1984  
 Lt Rajani Bhatt (NR-21460P), 27 Aug 1983  
 Lt S Sheetal Mudaliar (NR-21461X), 19 Dec 1981  
 Lt Manisha (NR-21462A), 09 Jul 1982  
 Lt Leena Tamang (NR-21463H), 29 Aug 1983  
 Lt Neetu Kumari (NR-21464L), 25 May 1978  
 Lt Shikha K (NR-21465N), 02 Jan 1984  
 Lt Manhau Niang (NR-21466W), 03 Jun 1981  
 Lt Arun Dhati (NR-21467Y), 14 Jan 1983  
 Lt Mary Johnson K (NR-21468F), 01 Feb 1984  
 Lt Raminder Kaur (NR-21469K), 09 Oct 1980  
 Lt Pragati Nigam (NR-21470Y), 15 Apr 1981  
 Lt Divya P (NR-21471F), 16 Mar 1983  
 Lt Radhika PV (NR-21472K), 30 May 1984  
 Lt Pooja Rai (NR-21473M), 11 Apr 1983  
 Lt Padma Ragini (NR-21474P), 11 Aug 1983

Lt Satwinderjit Kaur (NR-21475X), 12 Jan 1984  
 Lt Recna Kumari (NR-21476A), 15 Jan 1981  
 Lt Sheena Mathew (NR-21477H), 21 Feb 1981  
 Lt Shikha Gupta (NR-21478L), 15 Aug 1981  
 Lt Sonia Tripathi (NR-21479N), 31 Jan 1982  
 Lt Vandana Kumar (NR-21480H), 25 Oct 1982  
 Lt Anju Mathew (NR-21481L), 02 Apr 1983  
 Lt Ritu Rai (NR-21482N), 11 Sep 1979  
 Lt Seema Kapse (NR-21483W), 16 Feb 1981  
 Lt Jisha B (NR-21484Y), 10 Feb 1983  
 Lt Sweta Sharma (NR-21485F), 01 May 1984  
 Lt Susy Anand (NR-21486K), 07 Jul 1979  
 Lt Karyani (NR-21487M), 05 Dec 1980  
 Lt Rakhi (NR-21488P), 27 Nov 1981  
 Lt Ritu Dagar (NR-21489X), 19 Nov 1982  
 Lt Soniya Praveen (NR-21490M), 05 Mar 1981

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537-DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with A1 3/98 with effect from 10 Sep 2005 [(Seniority from 10 Sep 2004 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing))]: -

To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number and Date of Birth

Lt Babita Kumari (NR-21423F), 23 May 1981  
 Lt Amitha Alexander (NR-21424K), 13 Jan 1983  
 Lt Premlata Singh (NR-21425M), 24 Aug 1979  
 Lt Deepa Kumari (NR-21426P), 21 Nov 1979  
 Lt Shashi Rawat (NR-21427N), 04 Jul 1980  
 Lt Divya Jagdish (NR-21428A), 16 Nov 1982  
 Lt Rashmi Jose Therattil (NR-21429H), 21 Apr 1981  
 Lt Priya Teotia (NR-21430X), 02 Aug 1982  
 Lt Sajini P Krishnan (NR-21431A), 13 Apr 1980  
 Lt S Sree Devi (NR-21432H), 25 Jul 1982  
 Lt Rajee RR (NR-21433L), 20 May 1980  
 Lt Arpita Das (NR-21434N), 03 Feb 1982  
 Lt Purnima Kumari (NR-21435W), 04 Jan 1982  
 Lt Nibha Kumari (NR-21436Y), 27 Jul 1977  
 Lt Geeta Ponera (NR-21437F), 14 Sep 1977  
 Lt Meena KK (NR-21438K), 09 Feb 1982

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537-DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with A1 3/98 with effect from 02 Aug 2003:

To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number, Date of Commission and Date of Birth

Lt Asha KJ (NR-21242W), 02 Aug 2003/22 May 1982  
 Lt Pushplata Rawat (NR-21243Y), 02 Aug 2003/30 Oct 1979  
 Lt Radha (NR-21244F), 02 Aug 2003/07 Sep 1978  
 Lt Pooja Sharma (NR-21245K), 02 Aug 2003/27 Oct 1981  
 Lt Manju Rana (NR-21246M), 02 Aug 2003/15 Sep 1982  
 Lt Shipra Dorothy Roy (NR-21247P), 02 Aug 2003/22 Sep 1980  
 Lt Jaswin Jose (NR-21247X), 02 Aug 2003/17 Oct 1981  
 Lt Poonam (NR-21249A), 02 Aug 2003/14 Dec 1979  
 Lt Priyam Saramma Varghese (NR-21250P), 02 Aug 2003/13 Sep 1981  
 Lt Jaya Sharma (NR-21251X), 02 Aug 2003/22 Aug 1978  
 Lt Seema Thomas (NR-21252A), 02 Aug 2003/16 May 1979  
 Lt Shruti Singh (NR-21253H), 02 Aug 2003/25 Dec 1981  
 Lt Preeti Upadhyay (NR-21254L), 02 Aug 2003/06 Jul 1982  
 Lt Rosy Rout (NR-21255N), 02 Aug 2003/20 Sep 1977  
 Lt Nandini Paniker (NR-21256W), 02 Aug 2003/30 Jun 1981  
 Lt Chanchal Rani (NR-21257Y), 02 Aug 2003/29 May 1981  
 Lt Nisha Kumari (NR-21258F), 02 Aug 2003/16 Sep 1978  
 Lt Pooja Sharma (NR-21259K), 02 Aug 2003/20 Dec 1981  
 Lt Pratima Rawat (NR-21260Y), 02 Aug 2003/14 Jun 1981  
 Lt Monica Sharma (NR-21261F), 02 Aug 2003/04 Dec 1981  
 Lt Preethamole Babu (NR-21262K), 02 Aug 2003/14 Jul 1982  
 Lt Bhawna Budhori (NR-21263M), 02 Aug 2003/20 Aug 1982  
 Lt Kamlesh Kumari Mishra (NR-21264P), 02 Aug 2003/01 Jun 1977  
 Lt Arti Mishra (NR-21265X), 02 Aug 2003/26 Aug 1978  
 Lt Noorjahan (NR-21266A), 02 Aug 2003/29 Jun 1980  
 Lt Neelam Rathore (NR-21267H), 02 Aug 2003/06 May 1981

Lt Reena (NR-21268L), 02 Aug 2003/02 Sep 1980

Lt Sandhya R Nair (NR-21269N), 02 Aug 2003/26 May 1982

Lt Thockchom Radhapyari Devi (NR-21270H), 02 Aug 2003/01 Aug 1977

Lt Sathi Biswas (NR-21271L), 02 Aug 2003/16 Oct 1977

Lt Lipika Dey (NR-21272N), 02 Aug 2003/01 Jul 1978

Lt Rajani Jagdeva (NR-21273W), 02 Aug 2003/24 Jan 1979

Lt Leena K (NR-21274Y), 02 Aug 2003/27 Aug 1981

Lt Arpana (NR-21275F), 02 Aug 2003/25 Dec 1982

Lt Delphine Alexander Peter (NR-21276K), 02 Aug 2003/17 Jul 1981

Lt Pooja (NR-21277M), 02 Aug 2003/10 Aug 1981

Lt Jhankrita Halder (NR-21278P), 02 Aug 2003/06 Jun 1980

Lt Jyoti Prabha Sharan (NR-21279X), 02 Aug 2003/15 Aug 1980

Lt Pushpa Bhatt (NR-21280M), 02 Aug 2003/21 Nov 1981

Lt Rehna VR (NR-21281P), 02 Aug 2003/23 May 1982

Lt Moumita Adhikary (NR-21282X), 02 Aug 2003/15 Aug 1981

Lt Swati Sharma (NR-21283A), 02 Aug 2003/10 Sep 1982

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 02 Aug 2003 :—

#### To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number, Date of Commission and Dated of Birth

Lt Bidisha Basu (NS-21284H), 02 Aug 2003/06 May 1979

Lt Pooja Jha (NS-21285L), 02 Aug 2003/05 May 1982

Lt Prasanna Kumari (NS-21286N), 02 Aug 2003/08 Aug 1977

Lt Arti Rani (NS-21287W), 02 Aug 2003/09 Nov 1978

Lt Mcrina Soni Bernard (NS-21288Y), 02 Aug 2003/28 Feb 1979

Lt Sumitra Gatiyala (NS-21289F), 02 Aug 2003/27 Oct 1980

Lt Asceema Mahunta (NS-21290W), 02 Aug 2003/28 Jan 1982

Lt Swati Srivastava (NS-21291Y), 02 Aug 2003/13 Aug 1983

Lt Rachna Srivastava (NS-21292F), 02 Aug 2003/19 May 1978

Lt Manju K Jose (NS-21293K), 02 Aug 2003/28 Feb 1982

Lt Parna Mallik (NS-21294N), 02 Aug 2003/10 Aug 1978

Lt Saroj (NS-21295P), 02 Aug 2003/01 May 1980

Lt Lekshmi S (NS-21296X), 02 Aug 2003/31 May 1979

Lt Premlata (NS-21297A), 02 Aug 2003/13 Feb 1980

Lt Neha Kapila (NS-21298H), 02 Aug 2003/08 Dec 1982

Lt Pooja Sharma (NS-21299L), 02 Aug 2003/13 Oct 1981

Lt Champa Rani Gupta (NS-21300P), 02 Aug 2003/08 Apr 1980

Lt A Valarmathi (NS-21301X), 02 Aug 2003/10 Apr 1980

Lt K Saritha (NS-21302A), 02 Aug 2003/02 Jun 1980

Lt MV Indu (NS-21303H), 02 Aug 2003/22 Apr 1979

Lt Apama Chitti (NS-21304L), 02 Aug 2003/04 Jul 1982

Lt Amrita (NS-21305N), 02 Aug 2003/09 Feb 1982

Lt Sreelima Nair (NS-21306W), 02 Aug 2003/03 Nov 1976

Lt Akansha Halder (NS-21307Y), 02 Aug 2003/17 May 1980

Lt Nitha K (NS-21308F), 02 Aug 2003/09 May 1977

Lt Anjali Singh (NS-21309K), 02 Aug 2003/01 Sep 1981

Lt Tintu KS (NS-21310Y), 02 Aug 2003/27 May 1982

Lt Anjali Chauhan (NS-21311F), 02 Aug 2003/06 Mar 1982

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 25 Aug 2005 :—

#### To be Lt on Probation

Rank, Name, Pers Number and Dated of Birth

Lt Hasi Sarkar (NS-21491P), 07 Apr 1979

Lt Indulekha KA (NS-21492X), 08 Nov 1980

Lt R Vijayalakshmi (NS-21493A), 26 Jul 1984

Lt Kunnath Jose (NS-21494H), 09 Nov 1983

Lt Arpana Pinky (NS-21495L), 04 Jul 1981

Lt Smita Joseph (NS-21496N), 05 Apr 1983

Lt Manju Soman (NS-21497W), 02 Aug 1983

Lt Bharti Devi (NS-21498Y), 21 Jan 1982

Lt Pushpa Kumari (NS-21499F), 05 Aug 1983

Lt Nirupma Sirswal (NS-21500L), 29 Feb 1980

Lt Sarita Rana (NS-21501N), 23 Sep 1980

Lt Seema Rajput (NS-21502W), 14 Jan 1984

Lt Parmil Yadav (NS-21503Y), 16 Jul 1984  
 Lt Sarita Singh (NS-21504F), 05 Dec 1983  
 Lt Anupama Shankhla (NS-21505K), 27 Jun 1981  
 Lt Jyotsna Singh (NS-21506M), 03 Feb 1983  
 Lt Varsha Madhulika (NS-21507P), 15 Feb 1983  
 Lt Rashmi Rana (NS-21508X), 01 Jul 1983  
 Lt Ajantha Markose (NS-21509A), 25 Dec 1982  
 Lt Priyanka S (NS-21510P), 29 May 1984  
 Lt Dhanya Balachandran (NS-21511X), 30 May 1984  
 Lt Nilima Dey (NS-21512A), 31 Dec 1977  
 Lt Shreya Singh (NS-21513H), 04 Jun 1980  
 Lt Amita Mishra (NS-21514L), 01 Jun 1982  
 Lt Suparna Singha (NS-21515N), 18 Apr 1982  
 Lt Maninder Kaur (NS-21516W), 14 Dec 1981  
 Lt Kanchan (NS-21517Y), 30 Jun 1981  
 Lt Sangeeta Yadav (NS-21518F), 06 Feb 1983  
 Lt Louis Lynette Thomas (NS-21519K), 30 Aug 1983  
 Lt Navjeet Kaur (NS-21520Y), 10 Apr 1982  
 Lt Penny George (NS-21521F), 17 Feb 1984  
 Lt Greeshma Varghese M (NS-21522K), 25 Oct 1984  
 Lt Ashwini (NS-21523H), 05 Feb 1981  
 Lt Meenakshi Pareek (NS-21524P), 18 Aug 1983

T PADMINI  
 Maj Gen  
 Addl DGMNS

#### (ARMY BRANCH)

No. 473, dated 9th September 2008. -The President is pleased to confirm the services of the undermentioned Captains on completion of their probationary period with effect from the dates shown against each :-

#### REGULAR ARMY SHORT SERVICE COMMISSION

Rank, Name, Pers No., Corps and Date of Confirmation

Capt Naveen PN (VS-1124P), RVC, 19 Mar 2007

Capt Maral Umesh Jaysingrao (VS-1125K), RVC, 19 Mar 2007

Capt Anvesh A (VS-1126M), RVC, 19 Mar 2007

Capt Rahul Dubey (VS-1127P), RVC, 19 Mar 2007

Capt Dhannjay Singh (VS-1128X), RVC, 19 Mar 2007

Capt Ashish Misra (VS-1129A), RVC, 19 Mar 2007

Capt Digvijayaditya Singh Mandhotra (VS-1130P), RVC, 19 Mar 2007

Capt K Senthil Kumar (VS-1131X), RVC, 19 Mar 2007

Capt Dheeraj Mehta (VS-1132A), RVC, 19 Mar 2007

Capt Aruprasath K (VS-1133H), RVC, 19 Mar 2007

Capt Sameer Faruque (VS-1134L), RVC, 19 Mar 2007

Capt J K Mathuria (VS-1135N), RVC, 19 Mar 2007

Capt G Venkatesan (VS-1136W), RVC, 19 Mar 2007

Capt M Iftasham Qureshi (VS-1137Y), RVC, 19 Mar 2007

Capt Kishor K (VS-1138P), RVC, 19 Mar 2007

Capt Anoop Mishra (VS-1139F), RVC, 19 Mar 2007

P RAMA SASTRY  
 Under Secy

No. 474, dated 9th September 2008. The President is pleased to make the following promotion in respect of VNS officers with effect from the date(s) mentioned against each name :-

#### REGULAR ARMY (PERMANENT COMMISSION)

To Col (Select) to Col

Rank, Name, Pers Number and Date of Promotion

Col P Lsha Rani (NR-16090W), 09 Apr 2007

T PADMINI  
 Maj Gen  
 Addl DGMNS

#### (ARMY BRANCH)

No. 475, dated 9th September 2008. The President is pleased to make the following promotion :-

#### REGULAR ARMY PIONEER CORPS

To be Substantive Sub Maj (RT)

Rank, Name, Personal No and Date of Promotion  
 Substantive Rank of Sub Maj

Sub (RT) Bhakt Ram Gaur (JC-132308W), 06 May 2008\*

\*Granted seniority in the rank of Sub Maj (RT) w/e 01 May 2008 without effect on pay and allowances.

To be Substantive Sub (GD/CLK)

Rank, Name, Personal No and Date of Promotion  
 Substantive Rank of Sub

Nb Sub (GD) Bhagwan Prasad (JC-829311X), 01 Jan 2008

Nb Sub (GD) Joy Dev Ghosh (JC-829312A), 01 Jan 2008

Nb Sub (GD) R Subburaj (JC-829313H), 01 Jan 2008

Nb Sub (GD) Sathyaseelan CK (JC-829314L), 21 Jan 2008\*

Nb Sub (GD) Santosh Gope Choudhary (JC-829315N), 01 Jan 2008

Nb Sub (GD) Ibungo Yaima Singha (JC-829317Y), 01 Feb 2008

Nb Sub (GD) Vishambar Singh (JC-829319K), 05 Feb 2008

Nb Sub (GD) Goutam Kumar Chowdhury (JC-829321F), 01 Feb 2008

Nb Sub (GD) Santosh Kumar (JC-829322K), 03 Mar 2008#

Nb Sub (GD) Rattan Singh (JC-829323M), 01 Mar 2008

Nb Sub (GD) Amar Singh (JC-829324P), 01 Mar 2008

Nb Sub (GD) Subodh Sagar Chaurasia (JC-829325X), 13 Mar 2008#

Nb Sub (GD) Janak Singh, SC (JC-829326A), 01 Mar 2008

Nb Sub (GD) Elias Lakra (JC-829327H), 07 Mar 2008#

Nb Sub (GD) K Kartikeyan (JC-829328L), 01 Mar 2008

Nb Sub (GD) Avadhesh Prasad Singh (JC-829329N), 10 Mar 2008#

Nb Sub (GD) Lallan Singh (JC-829330H), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Balendra Prasad Pat (JC-829331L), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Om Prakash Sharma (JC-829333W), 07 Apr 2008@

Nb Sub (GD) Surendra Pal (JC-829334Y), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Asha Ram (JC-829335I), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Suraj Pal Singh (JC-829336K), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Suresh Prasad (JC-829339X), 02 Apr 2008@

Nb Sub (GD) Md Aktaruddin Mazumdar (JC-829341P), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Ashok Kumar S (JC-829342X), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Om Prakash Mishra (JC-829343A), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Rajbir (JC-829345L), 11 Apr 2008@

Nb Sub (GD) Ramesh Chandra (JC-829346N), 01 Apr 2008

Nb Sub (GD) Baral Kalu Bhai Nana Bhai (JC-829348Y), 01 May 2008

Nb Sub (GD) Deep Chand (JC-829349F), 01 May 2008

Nb Sub Clk (GD) Prabhat Chandra Pattnaik (JC-829208Y), 01 Feb 2008

Nb Sub Clk (GD) Baldev Chand Rana (JC-829234N), 01 Feb 2008

Nb Sub Clk (GD) Deelip Belgaonkar (JC-829250L), 01 Mar 2008

Nb Sub Clk (GD) Jai Bahadur Yadav (JC-829262A), 01 Mar 2008

\*Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

\$Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

#Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

@Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allowances.

To be Nb Sub (GD)/CLK (GD)

Hav (GD) Jaswant Singh (No 8031916N now JC-829408H), 01 Feb 2008

Hav (GD) Rampal Singh (No 8031946L now JC-829409L), 01 Feb 2008

Hav (GD) Malikhan Singh (No 8031953F now JC-829410A), 01 Feb 2008

Hav (GD) Mohammed Tayyab (No 8031978N now JC-829411H), 01 Feb 2008

Hav (GD) Amar Singh (No 8032034Y now JC-829414W), 01 Mar 2008

Hav (GD) Basil E (No 8030643K now JC-829415Y), 01 Mar 2008

Hav (GD) Tukaram Vyankatrao Kendre (No 8030503X now JC-829416F), 01 Mar 2008

Hav (GD) Mohan Kumar KR (No 8031801A now JC-829417K), 01 Mar 2008

Hav (GD) Satish Kumar (No 8031888M now JC-829418M), 01 Mar 2008

Hav (GD) Ram Muni Singh (No 8030711M now JC-829419P), 01 Mar 2008

Hav (GD) Santa Mani Deb Barma (No 8030819K now JC-829420K), 01 Mar 2008

Hav (GD) Rupen Ch Nath (No 8030791P now JC-829421M), 01 Mar 2008

Hav (GD) Shiv Raj Meena (No 8030892H now JC-829423X), 01 Apr 2008

Hav (GD) Dharambir Singh Dhillan (No 8031023A now JC-829424A), 01 Apr 2008

Hav (GD) Om Prakash (No 8030750L now JC-829425H), 01 Apr 2008

Hav (GD) Pravakar Mohanty (No 8031991X now JC-829426L), 01 Apr 2008

Hav (GD) Shyam Singh Gohari (No 8032068M now JC-829427N), 01 Apr 2008

Hav (GD) Pooran Singh Kherwal (No 8032063N now JC-829428W), 01 Apr 2008

Hav (GD) Ramoular (No 8032130N now JC-829429Y), 01 Apr 2008

Hav (GD) Dadhi Ram Das (No 8030792X now JC-829430N), 01 Apr 2008

Hav (GD) Pempa Ram (No 8029547H now JC-829431W), 01 Apr 2008

Hav (GD) Mahesh Prasad (No 8030487L now JC-829432Y), 01 Apr 2008

Hav (GD) Hargawkar Bapu Ram (No 8030508W now JC-829433F), 04 Apr 2008\*

Hav (GD) Badhe Bhagwan Namdeo (No 8030509Y now JC-829434K), 01 Apr 2008

Hav (GD) Mudhu K (No 8030669Y now JC-829435M), 01 May 2008

Hav (GD) Jai Pal (No 8030904M now JC-829436P), 01 May 2008

Hav Clk (GD) K Vellai Swamy (No 8030100X now JC-829406X), 01 Feb 2008

Hav Clk (GD) Rajender Singh (No 8030165L now JC-829407A), 01 Feb 2008

Hav Clk (GD) Ravi Prakash Pandey (No 8030225P now JC-829412L), 01 Mar 2008

Hav Clk (GD) Ranbir Singh (No 8030289A now JC-829413N), 01 Mar 2008

\*[Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allowances]

#### To be Nb Sub (Musn)

Rank, Name, Army No now JC No and Date of Promotion

Hav (Musn) KM Mathivanan (No 803006611 now JC-829422P), 08 Mar 2008\*

\*[Granted seniority wef 03 Nov 2007 without effect on pay & allowances]

#### ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT/SUPPLY)

The President is pleased to make the following promotions:-

#### To be Subedar Major CLK(GD/SD)

Sub Sahdev Singh (JC-640881K), 01 Jan 2008

#### To be Subedar Major CLK(GD)

Sub Amritnath Dwivedi (JC-640657X), 04 Feb 2008

Sub Ram Murti Sharma (JC-640667F), 01 Mar 2008

Sub Mohammed Serajullah Khan (JC-640703F), 01 Mar 2008

#### To be Subedar Major (SKT)

Sub Prabhu Dhan (JC-640355L), 01 Jan 2008

Sub Nath Lal (JC-640358M), 22 Feb 2008

Sub Rajender Pandey (JC-640399H), 01 Mar 2008

#### To be Subedar Major (MT)

Sub Nagaraj R (JC-662036P), 01 Feb 2008

Sub Ramesh Raju C (JC-662119K), 26 Feb 2008

Sub Bala Gopalan V (JC-662167K), 05 Mar 2008

Sub S Gopu (JC-662168M), 01 Mar 2008

#### To be Subedar (MT)

Nb Sub Pilli Varkunta Rao (JC-663126M), 18 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Anwar Singh (JC-663134L), 15 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shashi Ram (JC-663151L), 21 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bhajan Lal (JC-663154Y), 18 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Hari Ram (JC-663155F), 19 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Mohan Lal (JC-663162X), 16 Oct 2007\*

\*(Gtd-seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kanwar Lal Choudhary (JC-663224M), 17 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Viswanadhan K (JC-663284F), 16 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Murli Dhar Sharma (JC-663303F), 19 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Mahavir Prasad (JC-663304K), 22 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Devakar Dashrath Vyankar (JC-663305M), 15 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Chander (JC-663308A), 20 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jai Narain (JC-663309II), 16 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Narayan Singh Mehra (JC-663310X), 16 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Krishan Prasad (JC-663311A), 24 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Satish Chand Sharma (JC-663312H), 16 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ramen Chandra Kar (JC-663314N), 18 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Gurshar Kushwaha (JC-663315W), 15 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kapil Dev Singh (JC-663335K), 31 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Maibam Brajamani (JC-663339A), 24 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Hari Shankar Singh (JC-663343H), 26 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bolin Chiborah (JC-663350Y), 17 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Raghuvir Singh (JC-663352K), 07 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sheo Mangal Pandey (JC-663353M), 25 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ajay Kumar (JC-663359N), 26 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Chandra Prakash Yadav (JC-663361L), 01 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jay Singh Yadav (JC-663426N), 25 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Balbir Singh (JC-663429F), 18 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ganga Ram (JC-663434M), 19 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Mohammad Ikbal (JC-663436X), 20 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Leeladhar Bhatt (JC-663437A), 17 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Home Bahadur (JC-663439A), 26 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shankar Dayal Dubey (JC-663440A), 01 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ayodhya Prasad (JC-663443N), 01 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Prithvi Singh (JC-663444W), 01 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Om Prakash (JC-663446F), 01 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bishan Singh (JC-663475W), 20 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Prakash Awasthi (JC-663476Y), 29 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ajit Singh (JC-663478K), 15 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Raju Mal (JC-663479M), 18 Oct 2007*	Nb Sub Kanhaiya Lal (JC-663577M), 01 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Karshat Kishore (JC-663481K), 01 Nov 2007*	Nb Sub Shailendra Kumar Singh (JC-663686Y), 01 Nov 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Ram Chandra Das (JC-663482M), 01 Nov 2007*	Nb Sub Parashu Ram Tripathi (JC-662955N), 11 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Kundan Singh (JC-663485A), 01 Nov 2007*	Nb Sub Shyam Bihari Mishra (JC-663299K), 06 Oct 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Sukumar Biswas (JC-663487L), 05 Nov 2007*	Nb Sub Prason Kumar Nayak (JC-663346W), 06 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Suresh Chandra Mishra (JC-663490L), 06 Nov 2007*	Nb Sub Bane Singh Malviya (JC-663349K), 23 Nov 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Raghubar Dayal (JC-663491N), 01 Nov 2007*	Nb Sub Krishan Pal (JC-663356A), 24 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Lalan Sharma (JC-663492W), 01 Nov 2007*	Nb Sub Rakesh Pal Singh (JC-663357H), 05 Nov 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Shiv Nath Singh (JC-663493Y), 12 Nov 2007*	Nb Sub Namdev Prasad Bagari (JC-663360H), 11 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Jagat Narain Saxna (JC-663495K), 01 Nov 2007*	Nb Sub Mundhira Prasad Singh (JC-663447K), 01 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Sher Bahadur Singh (JC-663496M), 01 Nov 2007*	Nb Sub Dharendra Nath Rana (JC-663448M), 01 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Bechan Ram (JC-663557Y), 01 Nov 2007*	Nb Sub Bhugwan Singh (JC-663474N), 04 Oct 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Bar Pal (JC-663558L), 01 Nov 2007*	Nb Sub Namo Narayan Tripathi (JC-663477H), 11 Dec 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).	*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
Nb Sub Bacha Lal Bhugat (JC-663560X), 01 Dec 2007*	
*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).	



Nb Sub Kalyan Singh (JC-663484X), 02 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Hira Lal Prajapati (JC-663494F), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Anop Singh (JC-663500K), 16 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Arjun Prasad Maurya (JC-663501M), 08 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Gotap Chaudhary (JC-663506L), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sita Ram Singh (JC-663507N), 03 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Mumti Lal (JC-663508W), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sant Ram (JC-663510N), 03 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Pratul Pandit (JC-663520X), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Lakhan Singh (JC-663571L), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sat Pal (JC-663574Y), 13 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Mahadev Kanji Gadia (JC-663575F), 03 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Satender Singh (JC-663576K), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Vijay Tashwar Tiwari (JC-663580M), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Krishan Chand (JC-663581P), 03 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jagdish Giri (JC-663583A), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kamala Rai (JC-663584H), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bharat Pd Chaurisa (JC-663585L), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Kumar (JC-663586N), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ratneswar Baruah (JC-663589F), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Rama Chandran K K (JC-663590W), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub U M Rao (JC-663592F), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Pal Singh (JC-663594M), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Umesh Chandra (JC-663595P), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Dileep Kumar (JC-663598H), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Umesh Kumar (JC-663599L), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Keshav Datt (JC-663602A), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Dev Muni Pal Yadav (JC-663603H), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kamal Prasad (JC-663678A), 03 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Harinder Singh (JC-663679H), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub B Pandey (JC-663680X), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Swapna Biswas (JC-663681A), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Tara Chand (JC-663689M), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Nand Kishore (JC-663690I), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Walasher Singh (JC-663691K), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Srijan Bhadr Rai (JC-663693P), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Vishwanathan P M (JC-663694X), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Baban Singh (JC-663695A), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Krishna (JC-663697I), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Krishna Sakshayika (JC-663698N), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jubair Ahmed (JC-663699W), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Dharmvir Singh (JC-663700A), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-663701H), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bijay Singh (JC-663702J), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Vimal Kumar Nishare (JC-663704W), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Keshav Datta (JC-663705V), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Rajender Singh (JC-663706F), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Raj Kumar (JC-663703H), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ravi Milan Yadav (JC-663706W), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kishan Prasad Sahu (JC-663705H), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Abdul Salam (JC-663771J), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bhagwan Bhagat (JC-663772K), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Gokal Chandra Sharma (JC-663837M), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub K Venkateswara Rao (JC-663838P), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ashok Kumar Mishra (JC-663841P), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Birender Nath Megumder (JC-663842N), 01 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kameshwar Singh (JC-663843A), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Nawaf Kishore Singh (JC-663840J), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ombir Singh (JC-663935M), 02 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Desh Raj Singh (JC-663936P), 01 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jagar Nath (JC-662697Y), 05 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shri Krishna (JC-662761L), 15 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jaysi Ram (JC-662785P), 31 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ravendran Pillai R (JC-662941N), 30 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jiyam Lal (JC-662950P), 31 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-662953H), 20 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Dev Lal (JC-662972N), 19 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Anil Kumar Pandey (JC-662978P), 03 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Banke Lal (JC-663104N), 08 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sunil Dutt (JC-663113P), 16 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sita Ram Gurjar (JC-663147H), 29 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Surendra Prasad (JC-663173K), 30 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Uday Roy (JC-663174F), 19 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Surat Bhadur Thapa (JC-663222F), 03 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub M B Pradhan (JC-663240K), 24 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Nitya Nanda Sahoo (JC-663241M), 17 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Babar Tanaji (JC-663242P), 19 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Binesh Baro (JC-663243X), 17 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shiv Charan (JC-663288X), 17 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bala Chandran K N (JC-663289A), 17 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Santani Kanta Das (JC-663290P), 19 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Nand Kishore (JC-663293H), 27 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Tanu Babu Singh (JC-663295N), 23 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Jaya Prakashan V (JC-663298F), 16 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kapil Deo Das (JC-663300), 13 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Bindi Prasad Singh (JC-663301W), 18 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Asha Ram (JC-663302Y), 23 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Niwas (JC-663306P), 01 Nov 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ramappa Nair (JC-663207XL 08 Oct 2007)  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Dalip Singh Dhami (JC-663340P), 16 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Rameshwar Prasad Nath (JC-663345N), 02 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Srikrishna Rao Chavali (JC-663347Y), 05 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Jagrati Singh (JC-663351H), 05 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Kishan Choud (JC-663354P), 25 Oct 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Kanaparthi Prasad (JC-663424H), 16 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Kotturapu Ananda Rao (JC-663425L), 16 Oct 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Chandu Das Munda (JC-663433K), 23 Oct 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Chintamani Mishra (JC-663438H), 15 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Gunda Prasad (JC-663442L), 16 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Jagender Nath (JC-663445Y), 22 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Baban Tiwari (JC-663473M), 12 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Dinanath Singh Dahiya (JC-663488N), 01 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007

Nb Sub Vishwan Singh (JC-663553N), 02 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Surya Ranjit Singh (JC-663556W), 21 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Ram Luchan Pandey (JC-663559K), 22 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub R S Yadav (JC-663682H), 01 Dec 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Ram Jitendra Yadav (JC-663687F), 15 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).  
 Nb Sub Venu Kumar Nair G (JC-663688K), 02 Nov 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).  
 To be Nb Sub Subedar (SKT)  
 Hav D S V Row (No 687085H now JC-664558N), 17 Sep 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).  
 To be Nb Sub Subedar (MT)  
 Hav Avtar Singh (No 3383426M now JC-664676F), 29 Sep 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).  
 Hav Md Abdul Latif (No 7773972K now JC-664667A), 10 Sep 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).  
 Hav Kailash Choud (No 13886976M now JC-664698L), 01 Oct 2007\*  
 Hav Anil Kumar (No 13887834F now JC-664694M), 10 Sep 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).  
 Hav Bhanu Doma Paul (No 13887929F now JC-664688W), 26 Sep 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).  
 Hav Pratulananda Sarma (No 13889172H now JC-664640H), 03 Sep 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007

Hav Kailash Chandra Tripathi (No 13890377K now JC-664674W), 25 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Saroj Kumar Singh (No 13890699K now JC-664673N), 03 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Sakir Ali (No 13890889W now JC-664657W), 01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Rajen Chandra Duta (No 13890971H now JC-664662F), 05 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Mahendra Prasad (No 13891004H now JC-664671H), 06 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Dharam Raj Ram (No 13891005I, now JC-664663K), 15 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Pal (No 13891355X now JC-664658Y), 07 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ganpat Singh (No 13891377W now JC-664619A), 14 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Gopal Ji Choudhary (No 13891385P now JC-664653A), 05 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Radhakrishnan Nair (No 13891788P now JC-664700N), 01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Sewak Misty (No 13891908H now JC-664691W), 27 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Joseph A (No 13894136F now JC-664670A), 18 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Phool Chand Gupta (No 13894429M now JC-664628F), 24 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Sudhir Kumar Singh (No 13894436H now JC-664614F), 11 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Shiv Pujan Singh (No 13894439W now JC-664609W), 06 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Rama Shankar Singh (No 13894752F now JC-664666X), 01 Sep 2007

Hav Manohar Lal (No 13894774A now JC-664656N), 01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Pravakar Bal (No 13894859W now JC-664611N), 10 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Rajendra Kumar Singh (No 13895238K now JC-664641L), 10 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Sathyendra Kumar Tiwary (No 138945264L now JC-664613Y), 28 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Hajarat Ali (No 13895425H now JC-664660W), 01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Pratap Singh (No 13895538X now JC-664617P), 16 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Praveen Singh (No 13897074X now JC-664654N), 13 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Akhil Chandra Ghosh (No 13897093H now JC-664672L), 06 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav. Sailendra Nath Ghosh (No. 13897382X now JC-664668N), 13 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Raj Bansh Tiwari (No 13897533L now JC-664689Y), 01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Babu Lal Yadav (No 13897711H now JC-664665P), 04 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Gopa Kumar K C (No 14817056W now JC-6646791J), 01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

To be Naib Subedar (MT)

Hav Shiv Pooja Singh (No 13894459X now JC-664692A), 06 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Pravakar Bal (No 13894859W now JC-664611N), 10 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Pratulananda Sankar (No 13889172H now JC-664601H), 03 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Kailash Chandra Tripathy (No 13890377K now JC-664674W), 25 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Saty Kumar Singh (No 13890699K now JC-664671N), 03 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav. Kailash Chaud (No 13886976M now JC-6647051), 01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Sakir Ali (No 13890889W now JC-664657W), 01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Rajen Chandra Datta (No 13890931H now JC-664662F), 05 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Dharam Raj Ram (No 13891005L now JC-664603K), 15 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Mahendra Prasad (No 13891004H now JC-6646711), 06 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Pul (No 13891355X now JC-664658Y), 07 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Gopal Ji Chaudhary (No 13891385P now JC-664653A), 05 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ganpat Singh (No 13891377W now JC-664679A), 14 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Avtar Singh (No 1389266M now JC-664676F), 29 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Anil Kumar (No 138887834F now JC-664664M), 10 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Bharat Datta Paul (No 13887929W now JC-664688W), 26 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ramsewak Misry (No 13891908H now JC-664691W), 27 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Radha Krishan Noh (No 1389178SP now JC-664708N), 01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Joseph A (No 13891136F now JC-664670A), 18 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Phool Chand Gupta (No 13894429M now JC-664628F), 24 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Praveen Singh (No 13897074X now JC-664654N),  
13 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Sudhir Kumar Singh (No 13894436H now JC-  
664614F), 11 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Akhil Chandra Ghosh (No 13897093H now JC-  
664672L), 06 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Rama Shankar Singh (No 13894752F now JC-  
664666X), 01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Manuhar Lal (No 13894774A now JC-664656N),  
01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Sailendra Nath Ghosh (No 13897382X now JC-  
664668N), 13 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Raj Bans Tiwari (No 13897533L now JC-664689Y),  
01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Md Abdul Latif (No 7773972K now JC-664667A),  
10 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Rajendra Kumar Singh (No 13895238K now JC-  
664641L), 10 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Sathyendra Kumar Tiwary (No 13895264L now JC-  
664613Y), 28 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Babu Lal Yadav (No 13897711H now JC-664665P),  
04 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Hajarat Ab (No 13895425H now JC-664660W), 01 Sep  
2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Pratap Singh (No 13895538L now JC-664617P),  
16 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Gopa Kumar K C (No 14812056W now JC-664699H),  
01 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Hira Lal (No 13890833K now JC-665010P), 23 Jan  
2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Madan Lal (No 13887272P now JC-665054M), 29 Jan  
2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Abhi Raj (No 13887285M now JC-664963L), 23 Jan  
2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Ram Naresh Yadav (No 13887532P now JC-665056X),  
29 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Achuthan Kurty K (No 13891466P now JC-665003Y),  
21 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Surendra Kumar (No 13891598H now JC-665053K),  
29 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Pitam Singh (No 13894364K now JC-665007P),  
01 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Rati Ram (No 13894389W now JC-665047W), 28 Jan  
2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 27 Oct 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Gorakh Nath Singh (No 13894404A now JC-665001N),  
21 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Shri Niwas Dubey (No 13894235K now JC-665060A),  
25 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Lal Babu Yadav (No 13894232W now JC-664940K),  
21 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Jang Bahadur Singh (No 13894827X now JC-665067N),  
28 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Bashu Ram Yadav (No 13894536X now JC-665004F),  
18 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Sunaj Pal Singh (No 13894781W now JC-665053J),  
01 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Bateswar Pama (No 13894876W now JC-665000K),  
22 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Ram Shankar Singh (No 13897391Y now JC-665057A),  
29 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Mool Chand Dinker (No 13897403X now JC-665077J),  
23 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Bikram Chandra (No 13895082X now JC-665062J),  
25 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Dharanur Singh (No 13897745W now JC-665061H),  
29 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Navin Chandra (No 13895544Y now JC-665052J),  
26 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 03 Nov 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Surinder Kumar (No 13895674H now JC-664997Y),  
18 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Ranish Pal (No 13895701A now JC-665067K), 24 Jan  
2008\*

Hay Bhim Bhadur Thapa (No 13893714X now JC-  
665068M), 26 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Pool Deo Yadav (No 13897892Y now JC-665074K),  
25 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Gajender Singh (No 13895797X now JC-665069F),  
26 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Babu Lal Gujeri (No 13895835Y now JC-665077N),  
02 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Ashok Kumar (No 13897935H now JC-665058W),  
29 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Ram Pal Singh (No 13895889J, now JC-665083J),  
25 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Dinesh Pal Singh (No 13897955W now JC-665084K),  
25 Jan 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances).

Hay Dal Ram (No 13886694P now JC-664704H), 11 Oct  
2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Puran Prasad (No 13887166W now JC-664634A),  
15 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Ganga Prasad Patel (No 13887500M now JC-664652N),  
06 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Jun 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Ramayan Tiwari (No 13887557F now JC-664697X),  
12 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007  
without effect on pay & allowances).

Hay Rama Chandra Mohanty (No 13890498J, now JC-  
664692Y), 04 Oct 2007\*



Hav Dhokal Ram Meghwal (No 13891433K now JC-664345A), 09 Jul 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Subhas Chandra Biswas (No 13891943L now JC-664702X), 29 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Binod Kumar (No 13894271P now JC-664659F), 19 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Tila Ram Godara (No 13895113M now JC-664693F), 30 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Arun Kumar Singh (No 13895526W now JC-664679P), 04 Oct 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh (No 13897130I, now JC-664675P), 29 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

To be Naib Subedar Ck (GD/SD)

Hav R Srinivasan Iyengar (No 6379856N now JC-664987P), 27 Dec 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Mahendra Prasad (No 6380003H now JC-665141A), 01 Mar 2008

Hav Kunaer Bahadur Singh (No 6380004L now JC-665132Y), 16 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Rajendra Kumar (No 6380089M now JC-665133F), 21 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Hardeo Singh (No 6380115H now JC-665134K), 22 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh Chander Yadav (No 6380144X now JC-665137X), 01 Mar 2008

Hav Vinay Kumar Singh (No 6380116L now JC-665135M), 20 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh Chander (No 6380147I, now JC-665139H), 01 Mar 2008

Hav Ram Phal (No 6380124K now JC-665142I), 01 Mar 2008

Hav Halapani Sehi (No 6378364H now JC-665167P), 05 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Kuppa Srinivasa Sastry (No 6379369N now JC-665140X), 01 Mar 2008

Hav Ram Rattan (No 6380145A now JC-665136P), 01 Mar 2008

Hav Ramendra Singh (No 6380118W now JC-665138A), 01 Mar 2008

Hav Gopal Singh (No 6380166W now JC-665170P), 01 Apr 2008

Hav Md Rafique Islam (No 6380159A now JC-665168X), 01 Apr 2008

Hav Chandra Kumar Adhikary (No 6380164L now JC-665169A), 01 Apr 2008

Hav Utam Kumar Mandal (No 6380171F now JC-665171X), 01 Apr 2008

Hav Sita Ram Sharma (No 6380215N now JC-665172A), 01 Apr 2008

To be Naib Subedar PA

Hav Ramesh Chandra Rai (No 14390577N now JC-665241L), 01 Apr 2008

Hav Sandip Kumar Saha (No 8031553P now JC-665173H), 01 Mar 2008

Hav Awadh Bihari Shukla (No 14587248W now JC-665174L), 07 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Kanjunon S (No 14593220M now JC-665180Y), 08 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Ajay Kumar (No 14593712L now JC-665240H), 01 Apr 2008

Hav Damerla Veera Raghavaia (No 15353048A now JC-665176W), 07 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Gajraj Singh Rathore (No 145983933 now JC-665242N), 01 Apr 2008

Hav Dhiren Kumar Naskar (No 145989911 now JC-665243W), 01 Apr 2008

Hav Rajendra G (No 15355331A now JC-665178H), 07 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Hav M Mohan Lal Subh (No 14598950H now JC-665244Y), 01 Apr 2008

Hav Seema KC (No 14601762N now JC-6652573V), 01 Apr 2008

Hav Jagdish Maurya (No 6383110P now JC-665141L), 23 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Anandini Kumar (No 9088338Y now JC-665179K), 20 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Shinde Vijay Kanta Kallap (No 2479797H now JC-665175N), 08 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Hav Jai Bhagwan (No 7430874X now JC-665177Y), 07 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

To be Subedar Clk (GD SD):

Nb Sub Dhanam Pal (JC-643235X), 23 Feb 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ratan Chandi (JC-643240H), 01 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shanti Prasad Nautiyal (JC-643176W), 01 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Babu Sharma (JC-642539K), 19 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sanjay Mal Saini (JC-643237H), 01 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sudhagar Singh Janwari (JC-662570X), 01 Apr 2008

Nb Sub Bodh Raj Dogra (JC-643067K), 01 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 04 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shrikant (JC-663452P), 01 Apr 2008

Nb Sub Ajay Kumar Jha (JC-662869H), 01 Apr 2008

Nb Sub Hema Datta (JC-643242N), 13 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Balbir Singh (JC-662863A), 01 Mar 2008

Nb Sub Sivaraman KV (JC-642698A), 01 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 04 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Manish Kumar (JC-643120K), 07 Apr 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Manmohan KM (JC-662677P), 01 Mar 2008

Nb Sub Ramphal Lal Elor (JC-663187K), 01 Apr 2008

Nb Sub Rashpal Chahal Virdi (JC-663039Y), 01 Apr 2008

Nb Sub Gopimohan Nali G (JC-663081X), 01 Apr 2008

Nb Sub Harinder Kumar (JC-663037N), 03 Mar 2008\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Subh Ram (JC-663035W), 01 Mar 2008

Nb Sub Umesh Singh (JC-663212X), 01 Apr 2008

Nb Sub Saroj Kumar Singh (JC-663035H), 01 Mar 2008

Nb Sub Dhruva Narayan Maurya (JC-663036L), 01 Mar 2008

To be Nb Subedar SAs:

Hav Mewa Ram (No 6382225W now JC-663793A), 28 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Patel Devendra Bhai Hira Bhai (No 6380253K now JC-663794H), 26 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh Kumar (No 6383787A now JC-663795L), 24 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bhim Singh (No 6384346W now JC-663796N), 24 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Prehladan PC (No 6381204N now JC-663797W),  
24 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav A Anbalagan (No 6384291X now JC-663798Y),  
26 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav R Mohan Raj (No 6384125K now JC-663799F),  
29 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav K Duryodhan (No 6384481K now JC-663800L),  
26 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Mukut Bihari Sharma (No 6384722Y now JC-  
663801N), 27 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Kumre Sham Rao Janbaji (No 6383170K now JC-  
663802W), 26 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Anu Lal (No 6385253N now JC-663803Y), 26 Dec  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Dipankar Roy Choudhary (No 6384654W now JC-  
663804F), 27 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Zorawar Singh (No 6384740F now JC-663805K),  
26 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Satyawar Singh (No 6384147H now JC-663806M),  
01 Jan 2006

Hav Anil Kumar Singh (No 6384627M now JC-663807P),  
14 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Ved Prakash (No 6385133P now JC-663808X), 02 Jan  
2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Talagapu Simachalam (No 6385669L now JC-  
663809A), 04 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Rohit Ram (No 6383940L now JC-663810P), 04 Jan  
2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Nawal Kishore Prasad (No 6384527F now JC-  
663811X), 01 Jan 2006

Hav Mahadev Hundre (No 13897498N now JC-663812A),  
03 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Hemraj Singh (No 6385468M now JC-663813H),  
01 Jan 2006

Hav Selva Kumar P (No 6386008X now JC-663814L),  
02 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Balakrishnan R (No 6386013H now JC-663815N),  
01 Jan 2006

Hav S Manivannan (No 6384096A now JC-664534K),  
01 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Aug 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Gopi Chand Mahto (No 6384342A now JC-664535M),  
01 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Babar Anil Suryabhan (No 6384980Y now JC-  
664536P), 01 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Pradeep R (No 6383962K now JC-664537X), 01 Aug  
2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Ravi Kumar S (No 13891800L now JC-664555A),  
03 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006  
without effect on pay & allowances).

Hav Abdus Sherif (No 6384655Y now JC-664556H),  
01 Aug 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Gade Mantri Vilhal (No 6384975N now JC-6645871),  
01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Hanuman Singh (No 63859321 now JC-664559W),  
01 Sep 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007  
without effect on pay & allowances).

Hav Udaya Kumar V (No 6385479Y now JC-664560L),  
01 Sep 2007

Hav Roy P (No 6385370Y now JC-664561N), 01 Sep 2007

Hav John Kusumose (No 6385387N now JC-664562W),  
01 Sep 2007

Hav Koyya Eswara Rao (No 6385778X now JC-664563Y),  
01 Sep 2007

Hav Manoj Kumar Singh (No 6385567P now JC-664564L),  
01 Sep 2007

Hav Vinay Kumar (No 6385849N now JC-664643W),  
01 Sep 2007.

#### REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major(GD)

Sub Chaudhary Mohan Machak Rao (JC-261765P),  
01 Mar 2008

Sub Naikanware Dhanawat (JC-258779W), 23 May 2008  
01 Apr 2008\*

Sub Ashok Kumar Tiwari (JC-257735M), 30 Apr 2008  
01 Apr 2008\*

Sub Dungan Singh (JC-260602F), 13 May 2008 01 Apr  
2008\*

Sub Vijay Shanker Singh (JC-260414A), 10 May 2008  
01 Apr 2008\*

Sub Amarjit Singh (JC-259568A), 19 May 2008 01 Apr  
2008\*

Sub Bharat Singh (JC-261353A), 07 May 2008 01 May  
2008\*

Sub Mahender Singh (JC-262593K), 26 May 2008 01 May  
2008\*

Sub Vishwanath Singh (JC 258041Y), 25 May 2008,  
01 May 2008\*

Sub Bindu Das Kujur (JC-260067M), 01 May 2008

Sub Ganesh Chandra Joshi (JC-260186L), 01 May 2008

Sub S Pandi (JC-261626X), 02 Jun 2008, 01 Jun 2008\*

Sub Venu P (JC-258493L), 01 Jun 2008

Sub S Senthinayagam (JC-260027L), 05 Jun 2008 01 Jun  
2008\*

Sub Pritam Singh (JC-260188N), 02 Jun 2008-01 Jun 2008\*

Sub Dharmvir Singh Sharma (JC-261419L), 01 Jun 2008

Sub Katara Nandoo Sarabu (JC-262144P), 19 Jun 2008  
01 Jun 2008\*

To be Substantive Subedar Maj (AIG)

Sub Pritam Chand (JC-258257A), 05 May 2008 01 May  
2008\*

Sub Raman Lal (JC-258265Y), 12 Jun 2008-01 Jun 2008\*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Devindra Singh (JC-266485X), 07 Mar 2008  
01 Mar 2008\*

Nb Sub Eswarappa (JC-266511N), 01 Mar 2008

Nb Sub Arvind Kumar Tiwari (JC-266628M), 01 Apr 2008

Nb Sub Dil Sukh (JC-266626L), 01 Apr 2008

Nb Sub Seetaramiah Veluvolu (JC-266897Y), 03 May  
2008-01 May 2008\*

Nb Sub Choudhary Ravindranath Balaso (JC-266893L),  
02 Jun 2008-01 Jun 2008\*

Nb Sub Virender Singh Shekhawat (JC-267019P), 02 Jun  
2008-01 Jun 2008\*

Nb Sub Shelar Chandra Kant Rajaram (JC-266898F),  
03 Jun 2008-01 Jun 2008\*

Nb Sub Prahlad Kumar Meena (JC-267020K), 02 Jun  
2008-01 Jun 2008\*

Nb Sub Balwan Singh (JC-267022P), 01 Jun 2008

Nb Sub P Kumaresan (JC-267623X), 01 Jun 2008

Nb Sub Satnam Singh (JC-267987M), 01 Jul 2008

\*(Gtd Seniority wef)

Nb Sub Uttam Kumar Sinha (JC-268673X), 19 May 2008  
18 Feb 2008\*

Nb Sub Dharanibir (JC-267825F), 08 May 2008-01 Apr  
2008\*

Nb Sub Nikam Balu Sambha (JC-269025F), 12 May 2008  
01 May 2008\*

Nb Sub Utekar Sunil Rajaram (JC-268917W), 09 Jun 2008  
01 May 2008\*

Nb Sub Pundalik Gidappa Gou (JC-267876P), 21 May  
2008-01 May 2008\*

Nb Sub Patil Ashok Shivkumar (JC-266166L), 15 Mar 2008  
01 Dec 2007\*

Nb Sub Sura Guneta Reddy (JC-268270X), 06 Nov 2007  
06 Aug 2007\*

Nb Sub Ambre Laxu Bhagoji (JC-267288J), 19 Apr 2008  
01 Dec 2007\*

Nb Sub Nar Singh (JC-268641P), 14 May 2008/01 Feb 2008\*

Nb Sub Ransingh Baban Dinkar (JC-268377M), 02 May 2008/01 May 2008\*

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-266847N), 11 Apr 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Narendra Singh (JC-267946H), 08 Nov 2007/01 Aug 2007\*

Nb Sub Jagdish Singh Shekhawat (JC-266685N), 07 Jan 2008/01 Aug 2007\*

Nb Sub Nitya Nand (JC-267668A), 27 May 2008/01 Feb 2008\*

Nb Sub Laxman Singh (JC-268186X), 08 May 2008/01 Mar 2008\*

\*(Gtd Seniority wef)

To be Nb Sub

Hav Mahinder Singh (No 14384658X now JC-271841W), 12 May 2008/06 Nov 2008\*

Hav Munna Lal (No 14479351X now JC-271842Y), 22 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Hav Amrik Singh (No 14377927W now JC-271843F), 15 May 2008/01 Feb 2008\*

Hav Balkar Singh (No 15108486M now JC-271844K), 12 May 2008/01 Feb 2008\*

Hav Baldev Singh (No 14384882K now JC-271845M), 24 May 2008/01 Mar 2008\*

RHM Rajbir Singh (No 14391053Y now JC-271846P), 22 Apr 2008/13 Mar 2008\*

Hav Sakatnarjit Singh (No 14499743M now JC-271847X), 22 May 2008/21 Mar 2008\*

Hav Balwan Singh (No 14399825A now JC-271848A), 04 May 2008/30 Mar 2008\*

Hav Anand Kumar (No 14487618W now JC-271849H), 27 May 2008/01 Mar 2008\*

Hav Vijai Pal (No 14408693F now JC-271850X), 19 May 2008/10 Apr 2008\*

Hav Vinod Kumar (No 14498246W now JC-271851A), 18 May 2008/14 Apr 2008\*

Hav Jaswant Singh (No 14382689Y now JC-271852H), 30 Apr 2008

Hav Patil Nilesh Ashok (No 15120370H now JC-271853L), 13 May 2008/01 May 2008\*

Hav George Varghese (No 14499064P now JC-271854N), 17 May 2008/13 May 2008\*

BHM Balbir Singh (No 14371431L now JC-271855W), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Md Sanim Ahmed (No 15104211F now JC-271856Y), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

RHM Patil Deepak Hemraj (No 15123619P now JC-271857F), 26 May 2008/16 May 2008\*

Hav S H Chandra Babu (No 14409726N now JC-271858K), 27 May 2008/16 May 2008\*

RHM Ramawar Singh (No 15111113K now JC-271859M), 31 May 2008/16 May 2008\*

Hav Prasanta Kumar (No 14417769X now JC-271860F), 24 May 2008/16 May 2008\*

BHM Ugma Ram (No 14408654H now JC-271861K), 01 Jul 2008/16 May 2008\*

Hav Sivkumar V (No 14412983W now JC-271862M), 31 May 2008/16 May 2008\*

Hav Ravindra Kumar (No 15125084L now JC-271863P), 02 Jun 2008/16 May 2008\*

Hav Shri Krishan (No 14105863P now JC-271864X), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Hawa Singh (No 15122865A now JC-271865A), 06 Jun 2008/01 Jun 2008\*

\*(Gtd Seniority wef)

Hav Daya Ram (No 14380973W now JC-271696K), 01 Mar 2008/01 Nov 2007\*

Hav Shailo Sharma (No 15108735A now JC-271697M), 14 Feb 2008/26 Nov 2007\*

Hav Muniyandi V (No 14486315P now JC-271698P), 28 Feb 2008/26 Nov 2007\*

Hav Krishan Kumar (No 14485728M now JC-271699X), 01 Mar 2008/01 Dec 2007\*

Hav Satesh Prasad Chamola (No 14494922H now JC-271700F), 28 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Hav Ram Janam Singh (No 14384180L now JC-271701K), 30 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Hav Yudhirstir Saiba (No 14372218X now JC-271702M), 01 Mar 2008/24 Jan 2008\*

Hav Tammitreddi Ramakrishna (No 14111343X now JC-271703P), 01 Apr 2008/01 Feb 2008\*

Hav C Rajangam (No 15106145H now JC-271704X), 18 Mar 2008/01 Feb 2008\*

Hav Sandip Kumar (No 14395170F now JC-271705A), 10 Mar 2008/01 Feb 2008\*

Hav Anantu Narayana Sarma (No 14397362X now JC-271706H), 26 Mar 2008/01 Feb 2008\*

Hav Parimal Kumar Ghosh (No 14379123A now JC-271707L), 23 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Hav Banwari Lal (No 15109280F now JC-271708N), 19 Mar 2008/10 Feb 2008\*

Hav V Ganesan (No 1511127K now JC-271609W), 04 Apr 2008 01 Feb 2008\*

Hav Dhann Ram (No 14489008H now JC-271710A), 01 Mar 2008 01 Mar 2008\*

Hav Raj Kumar Singh (No 14492733A now JC-271711N), 17 Apr 2008 01 Apr 2008\*

Hav Sukhdev Singh (No 14382183A now JC-271712W), 07 Apr 2008 01 Jan 2007\*

Hav Garbas Singh (No 14369545X now JC-271713Y), 07 Apr 2008 01 Aug 2007\*

Hav Ashok Kumar (No 14493100Y now JC-271714Z), 21 Feb 2008 01 Nov 2007\*

RHM Satyaaveer Singh (No 14492224I now JC-271715K), 28 Jan 2008 01 Nov 2007\*

Hav Suren Bora (No 14594146Y now JC-271716M), 22 Apr 2008 01 Jan 2008\*

Hav Kadam Saajay Shripatrao (No 14382065M now JC-271717P), 02 Feb 2008 28 Jan 2008\*

Hav Himangshu Biswas (No 14411782I now JC-271718N), 28 Apr 2008 21 Mar 2008\*

RHM Rakesh Kumar (No 14368084M now JC-271719A), 11 Apr 2008 24 Mar 2008\*

Hav M Mahayadagon (No 14388430V now JC-271720P), 01 Apr 2008

BHM Banshi Lal Yadav (No 14388240H now JC-271721X), 05 May 2008 01 Apr 2008\*

Hav G Ranga Saray (No 13655851Y now JC-271722A), 03 Apr 2008

Hav Subhash Chandra Baurai (No 15106385A now JC-271723H), 14 May 2008 04 Apr 2008\*

Hav Banshi Rao, Gupta (No 14374614M now JC-271724L), 07 May 2008 17 Apr 2008\*

Hav Tilak Singh (No 14279485F now JC-271725N), 01 May 2008

Hav Rakesh Singh Sukarwar (No 15119363A now JC-271726W), 01 May 2008

Hav Jagadhar (No 14386716P now JC-271727Y), 01 Jan 2008

\*(Gtd Seniority wtd)

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GID)

Sub Darshan Singh (JC-297292Y), 01 Mar 2008

Sub Har Singh Chahal (JC-297276I), 01 Apr 2008

Sub Krishan Singh (JC-297464H), 01 May 2008

Sub Jaipal Singh (JC-296384Y), 01 May 2008

Sub Billo Singh Shukla (JC-296595F), 01 May 2008

Sub V Ganesan (JC-297338W), 01 Jan 2008

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Bala Datt Joshi (JC-297122P), 01 Jun 2008

To be Substantive Subedar (GID)

Nb Sub Shivamund Lerespa Hongai (JC-299324P), 12 Oct 2007/30 Jul 2007\*

Nb Sub Dasrath Singh Yadav (JC-299381W), 11 Oct 2007/30 Jul 2007\*

Nb Sub Shankar Chandel (JC-299475N), 05 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Satendra Kumar (JC-298108P), 12 Jan 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Daljit Singh (JC-298479X), 08 Jan 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Sumet Singh (JC-298513M), 01 Jan 2008

Nb Sub Sughar Singh (JC-298529X), 11 Jan 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Ram Dattaji Ram (JC-298589M), 01 Jan 2008

Nb Sub Lal Singh (JC-298643P), 10 May 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Purna Ram Baland (JC-298796Y), 01 Jan 2008

Nb Sub Nathani Sahu (JC-298921X), 02 Jan 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Brj Basu (JC-298914P), 16 Jan 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Tej Bhari (JC-299206A), 24 Jan 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-299226P), 07 Jan 2008 01 Jan 2008\*

Nb Sub Karan Singh Yadav (JC-299283W), 01 Jan 2008

Nb Sub Indra Prasad Roy (JC-299360F), 01 Jan 2008

Nb Sub Rajendra Pratap Singh (JC-298693A), 11 Jan 2008 31 Jan 2008\*

Nb Sub Balkar Singh (JC-298979P), 29 Mar 2008 01 Feb 2008\*

Nb Sub Vasan Govind Kalia (JC-298971H), 08 Feb 2008 01 Feb 2008\*

Nb Sub Pramod Singh (JC-299181A), 29 Apr 2008 01 Feb 2008\*

Nb Sub Ghanshyam Lal Meena (JC-298374N), 01 Apr 2008

Nb Sub Mahender Singh (JC-298558M), 01 Apr 2008

Nb Sub Kailash Gaur (JC-298619Y), 12 Apr 2008 01 Apr 2008\*

Nb Sub Rikshapat Singh (JC-298685F), 14 Apr 2008 01 Apr 2008\*

Nb Sub Narendra Singh (JC-298905A), 01 Apr 2008

Nb Sub Govind Singh (JC-299108F), 04 Apr 2008 01 Apr 2008\*

Nb Sub Shiv Narain Singh Yadav (JC-299178A), 01 Apr 2008

Nb Sub Shaligram Sheshrao Arbat (JC-299477Y), 01 Apr 2008

Nb Sub Surendra Pratap (JC-299488L), 04 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Nb Sub Chandra Sekharan Nair TP (JC-299221W), 21 Apr 2008/03 Apr 2008\*

Nb Sub Nomal Gogoi (JC-298689X), 05 May 2008/23 Apr 2008\*

Nb Sub Diljit Singh (JC-298608M), 01 May 2008

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-298927Y), 01 May 2008

Nb Sub Janardhan Mishra (JC-299056W), 22 May 2008/01 May 2008\*

Nb Sub Hari Singh Bisht (JC-299099L), 02 May 2008/01 May 2008\*

Nb Sub A Venkateswara Reddy (JC-298406L), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Shiv Singh (JC-298698Y), 16 Apr 2008/06 Apr 2008\*

To be Substantive Subedar (CLK)

Nb Sub Joginder Singh (JC-298874L), 01 Apr 2008

Nb Sub Ram Avtar (JC-298878F), 01 May 2008

Nb Sub Ravindran Nair S (JC-298879K), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Nb Sub Surendra Nath Deka (JC-298950M), 01 Jun 2008

Nb Sub Udaya Pratap Singh Chauhan (JC-298951P), 01 Jun 2008

Nb Sub Ramdev Singh (JC-298952X), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

\*(Gtd ante-date seniority wcf)

To be Nb Sub

Hav Nagendra Singh (No 14379426P now JC-300274K), 25 Jan 2008/30 Nov 2007\*

BHM Rakesh Kumar Lakhanpal (No 14400671N now JC-300275M), 21 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Hav Sujathan Nair (No 14384469N now JC-300276P), 27 Mar 2008/28 Jan 2008\*

BHM M Arunugam (No 14491713A now JC-300277X), 08 Feb 2008/01 Feb 2008\*

BHM Virpat Singh (No 14383111H now JC-300278A), 11 Feb 2008/08 Feb 2008\*

Hav Mundhe Dilip Sopan (No 14385997K now JC-300279J), 01 Apr 2008/08 Feb 2008\*

Hav Rakesh Bali (No 14391266M now JC-300280X), 21 Mar 2008/26 Feb 2008\*

BHM Shiv Deni Choubey (No 14383615W now JC-300281A), 01 Mar 2008

Hav Gurdev Singh (No 14381878N now JC-300282H), 01 Mar 2008

Hav Punawasi Yadav (No 14388550X now JC-300283L), 08 Mar 2008/01 Mar 2008\*

Hav Mandala Chuna Kondla Rao (No 14393819W now JC-300284N), 05 Apr 2008/11 Mar 2008\*

BHM Gambheer Singh (No 14373600A now JC-300285W), 01 Apr 2008

BHM Bhopal Yadav (No 14388255P now JC-300286Y), 01 Apr 2008

Hav Biroujoy Basumatary (No 14372120K now JC-300287F), 01 Apr 2008

Hav Dhumal Sonoji Ramchandra (No 15101862M now JC-300288K), 01 Apr 2008

Hav Chander Bhan (No 14374826X now JC-300289M), 01 Apr 2008

Hav Bhupender Singh (No 14370570H now JC-300290F), 01 Apr 2008

Hav S Meganathan (No 15101896A now JC-300291K), 01 Apr 2008

BHM Ram Autar (No 14380443F now JC-300292M), 01 Apr 2008

Hav Mohiader Singh (No 14381451M now JC-300293P), 01 Apr 2008

BHM Shingara Singh (No 14387151F now JC-300294X), 01 Apr 2008

Hav Ramji Lal (No 15102882M now JC-300295A), 01 Apr 2008

Hav Ranbir Singh (No 14381814L now JC-300296H), 01 Apr 2008

Hav Manoj Kumar (No 14387585F now JC-300297L), 01 Apr 2008

BHM Angrej Singh (No 14378889X now JC-300298N), 12 Apr 2008/01 Apr 2008\*

BHM Harpal Singh (No 14379012H now JC-300299W), 15 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Hav G Munisamy (No 14386291F now JC-300300A), 15 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Hav Harish Chandra (No 14385740Y now JC-300301H), 18 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Hav Vanya Kumar S (No 14382652X now JC-300302L), 09 Apr 2008/08 Apr 2008\*

BHM Laxman Aloori (No 14388496P now JC-300303N), 15 Apr 2008/08 Apr 2008\*

RHM Prabhask Chandra Chaudhary (No 14413398H now JC-300304W), 10 Mar 2008/01 Mar 2008\*

RHM V Dhanapal (No 14395099Y now JC-300305Y), 01 Apr 2008

RHM Santosh Kumar KB (No 14406756A now JC-300306F),  
01 Apr 2008

RHM Mukha Ram Yadava (No 14391328F now JC-300307K), 01 Apr 2008

Hav Surendra Maharana (No 15103636N now JC-300308M), 01 Apr 2008

RHM Karande Mohan Namdeo (No 15764168N now JC-300309P), 04 Apr 2008/01 Apr 2008\*

RHM Shivamber Singh (No 14412472M now JC-300310K),  
12 Apr 2008/01 Apr 2008\*

RHM Sunil Kumar KO (No 15763902H now JC-300311M),  
07 Apr 2008/01 Apr 2008\*

RHM Raj Kumar (No 15762953K now JC-300312P), 08 Apr  
2008/01 Apr 2008\*

RHM Sanyasar Singh (No 14405431A now JC-300313X),  
15 Apr 2008/06 Apr 2008\*

RHM Jasvir Singh (No 14399600X now JC-300314A),  
01 May 2008

Hav Brijesh Kumar (No 14381359N now JC-300315B),  
01 May 2008

Hav Sivan Pillai N (No 15102528X now JC-300316L),  
01 May 2008

RHM Meer Singh (No 14410273A now JC-300317N),  
22 Apr 2008/01 Apr 2008\*

\*(Gtd ante-date seniority waf)

P RAMA SASTRY  
Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 476, dated 9th September 2008. —The President is  
pleased to make the following promotions :

REGULAR ARMY  
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Naib Subedar

BHM Surendra Kumar Nayak (No 4264756K now JC-826194M), 12 Dec 2007/01 Dec 2007\*

BHM Bafwan Singh (No 13895595M now JC-826195P),  
01 Jan 2008

\*(Date of seniority)

P P SINGH  
Under Secy

(ARMY BRANCH)

(CORRIGENDUM)

No. 477, dated 10th September 2008 —In Ministry of  
Defence Gazette Notification published in the Gazette of  
India on 05 Apr 2008 under the heading Regular Army  
Army Dental Corps (Permanent Commission) Sub heading  
'Wg Cdr to be Up Capt' for the following officers :—

J K Jain (DR-10317H) (AF-13798), 19 May 2005

A K Sharma (DR-10314P) (AF-26027), 07 Jul 2007

R K Sharma (DR-10354M) (AF-18549), 30 Nov 2006

For (sub heading) - Wg Cdr to be Gp Capt

Read - Wg Cdr to be Gp Capt (TS)

D K TANJIA  
Maj Gen  
Addl DGDS

(ARMY BRANCH)

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

(CORRIGENDUM)

No. 478, dated 10th September 2008. —In the Gazette of  
India, Ministry of Defence Notification No 598 dated 22 Nov  
2007 published in the Gazette of India dated 08 Dec 2007  
under the heading 'Special Commission' in the Regular Army  
is hereby amended as under :—

For :—

Amar Singh (15464831A) (SC-00523), AC

Santosh Kumar (2688304F) (SC-00524), ASC

Mukti Parshad Sharma (15766362A) (SC-00528X), Acty

Read :

Amar Singh (15464831A) (SC-00523Y), AC

Santosh Kumar (2688304F) (SC-00524F), ASC

Mukti Parshad Sharma (15766362A) (SC-00529A), Acty

NILESH CHOWDHARY  
Major  
MS-8B

(FINANCE DIVISION)

No. 478, dated 10th September 2008 — Shri R C Chopra  
CSS, Section Officer, Ministry of Defence (Fin) expired on  
28 Jan 2008.

RAMESH KUMAR  
Director (F)